

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20—दिसम्बर 26, 2014 (अग्रहायण 29, 1936)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20—DECEMBER 26, 2014 (AGRAHAYANA 29, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सं. दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित  
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by  
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2014

रा0कै0को0 मुख्यालय/एम एस (डी)

सं. 289, दिनांक 2 दिसम्बर 2014—निम्नांकित को थलसेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का कर्नल-इन-चीफ का अवैतनिक पद दिया जाता है :-

जनरल दलवीर सिंह, पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम, ए डी सी

थलसेना अध्यक्ष

रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (थलसेना)

नई दिल्ली - 110011

01 अगस्त 2014

एस पी सिंह  
ब्रिगेडियर  
उप महा निदेशक (एम एस)

## वायु शाखा

सं. 290, तारीख 2 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा से मु/22258/1/पी ओ 3(ए)/1611/डी ओ आई ए/डी (वायु-III) दिनांक 19 अक्टूबर 82 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के सामने लिखी तारीख से फ्लाइंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

## भारतीय वायु सेना

## ए ई (एम) शाखा

फ्लाइंग अफसर पटवारी लाल यादव (31901), जॉनसन जॉन (31902), सुशांत कुमार शर्मा (31903), 04 जुलाई 2011 से प्रभावी

फ्लाइंग अफसर गुंजन सुमन (32007) 15 जुलाई 2011 से प्रभावी

## ए ई (एल) शाखा

फ्लाइंग अफसर अजय कुमार (31930), हर्षदीप सिंह (31931), गौरव कक्कड़ (31932), दीपक यादव (31933), विकास कुमार यादव (31934), राहुल कुमार (31935), रोहित एम दास (31936), सागर शर्मा (31937), रविराज एस आर (31938), गुडला किशन (31939) 04 जुलाई 2011 से प्रभावी

फ्लाइंग अफसर शश्वत मिश्रा (32008), 15 जुलाई 2011 से प्रभावी

फ्लाइंग अफसर सौरभ गुप्ता (32020), अंकित जोशी (32021), विवेक राय (32022), अमित कुमार (32023)—17 जुलाई 2011 से प्रभावी

राष्ट्रपति, निम्नलिखित फ्लाइंग अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से तारीख वायु सेना आदेश 59/98 के प्रावधानों के तहत अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

## भारतीय वायु सेना

## ए ई (एम) शाखा

फ्लाइंग अफसर सुमित गोयल (31894), आदित्या नारायण सिंह (31895), भरत सिंह (31896), विनय सिंह चौहान (31897), आशुतोश सैनी (31898), हैप्पी सिंह (31899), सुहैल अब्बास (31900)—04 जुलाई 2011 से प्रभावी

## ए ई (एल) शाखा

फ्लाइंग अफसर विवेक चौहान (31904), अजय प्रताप सिंह (31905), कृष्ण कुमार के (31906), प्रियम वार्षणेय (31907), परवीन कुमार हुड्डा (31908), अभिषेक त्रिपाठी (31909), निरंजन मोहन मुदे (31910), चिनमय किरण तलहर (31911), शाह नवाज आलम (31912), अनन्या पाण्डेय (31913), तरुण सचदेवा (31914), यश मलिक (31915), नरेनधिरन एस (31916), लव गोयल (31917), डेनिस जॉन (31918), भावेश कुमार सिंघल (31919), आशीश असिजा (31920), गोरव शैरन (31921), सुमित पाल सिंह वालिया (31922), अश्विनी सिंह (31923), राहुल कुमार द्रौलिया (31924), सैयद मोहम्मद रजा (31925), हनमन्त पालाभवी (31926), नाजीव कुमार शर्मा (31927), दीपक कुमार सिंह (31928), वरद मुद्गल (31929)—04 जुलाई 2011 से प्रभावी

फ्लाइंग अफसर शांभित भारद्वाज (32005) —09 जुलाई 2011 से प्रभावी

फ्लाइंग अफसर मनोज के (32019) 17 जुलाई 2011 से प्रभावी

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा से आ/22258/1/पी ओ 3(ए)/1611/डी ओ आई ए/डी (वायु-III) दिनांक 19 अक्टूबर 82 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित अफसरों को प्रदान किए गए अस्थायी अल्पसेवा कमीशन को समाप्त कर उन्हें उनके नामों के सामने लिखी तारीख से फ्लाइंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परीविक्षा पर) प्रदान करते हैं।

## भारतीय वायु सेना

## ए ई (एम) शाखा

फ्लाइंग अफसर पटवारी लाल यादव (31901), गुनजन सुमन (32007)—02 जुलाई 2012 से प्रभावी।

## ए ई (एल) शाखा

फ्लाइंग अफसर अजय कुमार (31930), हर्षदीप सिंह (31931), गौरव कक्कड़ (31932), दीपक यादव (31933), विकास कुमार यादव (31934), राहुल कुमार (31935), रोहित एम दास (31936), सागर शर्मा (31937), रविराज एस आर (31938), गुडला किशन (31939), शाश्वत मिश्रा (32008), सौरभ गुप्ता (32020), विवेक राय (32022), अमित कुमार (32023), —02 जुलाई 2012 से प्रभावी

## ए ई (एम) शाखा

फ्लाइंग अफसर जॉनसन जॉन (31902)—02 जुलाई 2012 से प्रभावी।

## ए ई (एल) शाखा

फलाइंग अफसर अंकित जोशी (32021)—02 जुलाई 2012 से प्रभावी

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को प्रदत्त अल्प सेवा कमीशन (परीविक्षा पर) समाप्त करते हैं तथा वायु सेना आदेश 59/98 और वायु सेना अनुदेश 2/73 के शुद्धि-पत्र 10/84 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी कमीशन (परीविक्षा पर) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

ए ई (एम) शाखा

फलाइंग अफसर सुमित गोयल (31894), आदित्या नारायण सिंह (31895), भरत सिंह (31896), आशुतोष सैनी (31898), हैप्पी सिंह (31899), सुहैल अब्बास (31900) 02 जुलाई 2012 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

फलाइंग अफसर विवेक चौहान (31904), अजय प्रताप सिंह (31905), कृष्णा कुमार के (31906), प्रियम वार्षण्य (31907), परवीन कुमार हुड्डा (31908), अभिषेक त्रिपाठी (31909), निरंजन मोहन मुदे (31910), चिनमय किरण तलहर (31911), शाह नवाज आलम (31912), अनन्या पाण्डेय (31913), तरुण सचदेवा (31914), यश मलिक (31915), नरेनधिरन एस(31916), लव गोयल (31917), डेनिस जॉन (31918), भावेश कुमार सिंघल (31919), आशीष असिजा (31920), गौरव शैरन (31921), सुमित पाल सिंह वालिया (31922), अश्विनी सिंह (31923), राहुल कुमार द्रोलिया (31924), सैयद मोहम्मद रजा (31925), हनमन्त पालाभवी (31926), दीपक कुमार सिंह (31928),

फलाइंग अफसर वरद मुद्गल (31929), शोभित भारद्वाज (32005), मनोज के (32019), 02 जुलाई 2012 से प्रभावी

ए ई (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फलाइंग अफसर नाजीव कुमार शर्मा (31927), 02 जुलाई 2012 से प्रभावी।

तरुण खरे  
विंग कमांडर  
जेडीपीओ- 3 (डी)

## सेना सचिव शाखा

सं. 291, दिनांक 3 दिसम्बर 2014—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
1	2	3
1.	आई सी-35109 ए/ले0 जनरल आर वी कनिटकर, एस एम, वी एस एम, आर्म्ड	01.03.14
2.	आई सी-35115 ए/ले0 जनरल जगबीर सिंह, एस एम, वी एस एम, मेक इंफ	01.03.14
3.	आई सी-35137 ए/ले0 जनरल पी एम हरीज, एस एम, वी एस एम, मेक इंफ	01.03.14
4.	आई सी-35173 ए/ले0 जनरल आर जे नोरोन्हा, ए वी एस एम, एस एम राजपूत	01.03.14
5.	आई सी-34838 ए/ले0 जनरल जॉन ए जॉर्ज, वी एस एम, आर्टि	01.04.14
6.	आई सी-34410 ए/ले0 जनरल एस पी एस कटेवा, ए एस सी	21.04.14

1	2	3
7.	आई सी-37247 ए/ले0 जनरल जी एस चंदेल, वाई एस एम, बिहार	12.05.14
8.	आई सी-35471 ए/ले0 जनरल बिपिन रावत, ए वी एस एम, वाई एस एम, एस एम, वी एस एम, 11 जी आर	01.06.14
9.	आई सी-35796 ए/ले0 जनरल कंवल जीत सिंह, ई एम ई	01.07.14
10.	आई सी-38183 ए/ले0 जनरल गुरुमुख सिंह, एस एम, वी एस एम, ई एम ई	01.07.14
11.	आई सी-35479 ए/ले0 जनरल बी एस नेगी, वाई एस एम, एस एम, वी एस एम**, असम	04.07.14
12.	आई सी-35487 ए/ले0 जनरल एन पी एस हीरा, ए वी एस एम, एस एम, सिक्ख लाई	04.07.14
13.	आई सी-35494 ए/ले0 जनरल सुब्रता साहा, वाई एस एम, वी एस एम**, असम	04.07.14
14.	आई सी-35602 ए/ले0 जनरल ए बी शिवाने, वी एस एम, आर्म्ड	04.07.14
15.	आई सी-35650 ए/ले0 जनरल बी सी मैथ्यूज, ए वी एस एम, वी एस एम, कुमाउं	04.07.14
16.	आई सी-35226 ए/ले0 जनरल के जी कृष्णा, एस एम, वी एस एम, ग्रेन	11.07.14

पी के पटनायक  
निदेशक एम एस (एक्स)

सेना शाखा

सं. 292, दिनांक 3 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से मूल लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में

1.	वी-552एन मेजर सैमुएल जोसेफ प्रेमकुमार ई	आर वी सी	11.12.2012
2.	वी-556के मेजर मेहेन्डाले मांगेश मधुसुदन	आर वी सी	11.12.2012
3.	वी-557एम मेजर निशान्त राणा	आर वी सी	11.12.2012
4.	वी-558पी मेजर अनुप आर	आर वी सी	11.12.2012

5.	वी-559एक्स मेजर संजय जाधव	आर वी सी	11.12.2012
6.	वी-568वाई मेजर करुण छिकारा	आर वी सी	11.12.2012
7.	वी-569एफ मेजर शिबा कुमार मिश्रा	आर वी सी	11.12.2012
8.	वी-571वाई मेजर गगनदीप सिंह	आर वी सी	11.12.2012

दीपक नारंग  
अवर सचिव

सं. 293, दिनांक 4 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं।

नियमित सेना

कोर ऑफ इन्जीनियर्स

बंगाल इन्जीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार शिव चरन मंडल	(1483132एन	अब जेसी -340446डब्ल्यू)	04102013%
हवलदार कुलवंत सिंह	(1483156एक्स	अब जेसी -340447वाई)	26102013@
हवलदार दीप नरैन	(1483176एल	अब जेसी -340448एफ)	14102013@
हवलदार ससांका नंदी	(1483271एक्स	अब जेसी -340449के)	15102013@
हवलदार सुरजीत सिंह	(1483303पी	अब जेसी -340450वाई)	17102013@
हवलदार मोहन सिंह	(1483333एम	अब जेसी -340451एफ)	15102013@
हवलदार राजीब कुमार सिंह	(1483366एक्स	अब जेसी -340452के)	25102013@
हवलदार संतोष कुमार ढाल	(1483409एफ	अब जेसी -340453एम)	28102013@
हवलदार बिपुल कुमार सिंह	(1483425वाई	अब जेसी -340454पी)	25102013@
हवलदार राजिन्दर सिंह	(1483502एच	अब जेसी -340455एक्स)	24102013@
हवलदार कमल सिंह	(1483508के	अब जेसी -340456ए)	23102013@
हवलदार महेंद्र पाल गंगवार	(1483577ए	अब जेसी -340457एच)	27102013@
हवलदार फूल सिंह	(1483579एल	अब जेसी -340458एल)	18102013@
हवलदार सतीश कुमार	(1483613ए	अब जेसी -340459एन)	17102013@
हवलदार संतोष कुमार ठाकुर	(1483639पी	अब जेसी -340460एच)	15102013@
हवलदार तपन गोगोइ	(1483642पी	अब जेसी -340461एल)	24102013@
हवलदार नवल कुमार मंडल	(1483846एफ	अब जेसी -340462एन)	23102013@
हवलदार त्रिभुवन शंकर	(1484083एच	अब जेसी -340463डब्ल्यू)	17102013@
		नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में	
हवलदार सागर कुमार दलाल	(1484410एच	अब जेसी -340464वाई)	28102013@

## नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में

हवलदार सूरज प्रसाद यादव	(1486217पी	अब जेसी -340465एफ)	25102013\$
हवलदार समिरन मन्ना	(15336259एम	अब जेसी -340466के)	14102013#
हवलदार अजय कुमार ठाकुरेला	(15338304एम	अब जेसी -340467एम)	18102013&

## नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार प्रेम सिंह	(1488273एम	अब जेसी -340468पी)	30102013@
हवलदार शशि कांत तिवारी	(1488377एन	अब जेसी -340469एक्स)	30102013@

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012).

# (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013).

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013).

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2013).

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013).

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार कौशलेश पति त्रिपाठी	(1483288एल	अब जेसी -340113के)	01122012\$
हवलदार बिजेंद्र सिंह	(1483293डब्ल्यू	अब जेसी -340114एम)	01122012\$
हवलदार जिया लाल पाल	(1483310एल	अब जेसी -340115पी)	01122012\$
हवलदार नरेश कुमार पाल	(1483312डब्ल्यू	अब जेसी -340116एक्स)	07122012\$
हवलदार अरुण कुमार त्रिपाठी	(1483239के	अब जेसी -340117ए)	05122012\$
हवलदार खोसीद आलम	(1483335एक्स	अब जेसी -340118एच)	01122012\$
हवलदार राधा कांता जेना	(1483076ए	अब जेसी -340119एल)	01122012\$

## नायब सूबेदार (क्लर्क (एस० डी०)) के रैंक में

हवलदार रमेश कुमार सिंह	(15336013एन	अब जेसी -340120ए)	01122012\$
हवलदार निशि प्रताप बौद्ध	(15336033एफ	अब जेसी -340121एच)	01122012\$
हवलदार राज कुमार	(15336060एल	अब जेसी -340122एल)	01122012\$
हवलदार गजेंद्र सिंह शेखावत	(15336068एक्स	अब जेसी -340123एन)	01122012\$
हवलदार जितेंद्र सिंह	(15336086ए	अब जेसी -340124डब्ल्यू)	01122012\$
हवलदार पिकू कुमार	(15336091एल	अब जेसी -340125वाई)	01122012\$

## नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार भगवत प्रसाद पांडे	(1486399एन	अब जेसी -340126एफ)	27112012#
हवलदार मुकेश कुमार रंजन	(1486761डब्ल्यू	अब जेसी -340127के)	10122012#
हवलदार खुशाल सिंह बोहरा	(1489439पी	अब जेसी -340128एम)	01122012\$

## नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार जितेंद्र कुमार शर्मा	(1482770ए	अब जेसी -340129पी)	01122012\$
हवलदार मोहिंदर सिंह	(1482648के	अब जेसी -340130के)	01122012\$
हवलदार सुजीत मन्ना	(1482798ए	अब जेसी -340131एम)	01122012\$

हवलदार विनोद कुमार (1482574ए अब जेसी -340132पी) 12122012\$

# (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012).

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012).

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार जोगेश चंद्र मंडल (1482796पी अब जेसी -340133एक्स) 01012013&  
 हवलदार शिव गोविंद साहू (1482329एक्स अब जेसी -340134ए) 01012013&  
 हवलदार जोगिंदर राय (1482712डब्ल्यू अब जेसी -340135एच) 01012013&  
 हवलदार शीश राम यादव (1483052डब्ल्यू अब जेसी -340136एल) 01012013&  
 हवलदार विजय शंकर पांडे (1483157ए अब जेसी -340137एन) 01012013&  
 हवलदार परमजीत सिंह (1483372एल अब जेसी -340138डब्ल्यू) 01012013&  
 हवलदार सर्वेन्द्र कुमार पांडे (1483374डब्ल्यू अब जेसी -340139वाई) 01012013&  
 हवलदार कुलवंत सिंह (1483378एम अब जेसी -340140एन) 01012013&  
 हवलदार बबलू मंडल (1483382पी अब जेसी -340141डब्ल्यू) 01012013&  
 हवलदार नरेंद्र सिंह (1483400एम अब जेसी -340142वाई) 01012013&  
 हवलदार दया नंद (1483407डब्ल्यू अब जेसी -340143एफ) 01012013&  
 हवलदार धीरज सिंह नेगी (1483418एच अब जेसी -340144के) 07012013&

नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में

हवलदार श्याम लाल जोगी (15336099एक्स अब जेसी -340145एम) 01012013&  
 हवलदार समरजीत सिंह (15336100एफ अब जेसी -340146पी) 01012013&  
 हवलदार सुरेंद्र सिंह रावत (15336111एन अब जेसी -340147एक्स) 01012013&  
 हवलदार ए अरूण दास (15336116एम अब जेसी -340148ए) 01012013&  
 हवलदार रेजी पी (15336124एल अब जेसी -340149एच) 01012013&  
 हवलदार चंद्रवीर सिंह (15336127वाई अब जेसी -340150एक्स) 01012013&  
 हवलदार बिजोय थोमस (15336132के अब जेसी -340151ए) 01012013&  
 हवलदार मनोज कुमार (15336136ए अब जेसी -340152एच) 01012013&  
 हवलदार मोहन सिंह भंडारी (15336141एल अब जेसी -340153एल) 01012013&

नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में

हवलदार यशपाल (15336156एन अब जेसी -340154एन) 01012013&

नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार देवेन्द्रा कुमार मेहरा (1482907एफ अब जेसी -340155डब्ल्यू) 01022013&  
 हवलदार रंजीत सिंह (1482911के अब जेसी -340156वाई) 01012013&  
 हवलदार सत्येंद्र कुमार (1482963ए अब जेसी -340157एफ) 01012013&  
 हवलदार भाभा पाठक (1483184के अब जेसी -340158के) 01012013&  
 हवलदार कामिल हुसैन (1485936एफ अब जेसी -340159एम) 01012013&

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013).

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार कपिल शर्मा	(18001028एफ	अब जेसी -340161के)	17102011@
हवलदार दविंदर सिंह	(18001066एक्स	अब जेसी -340162एम)	17102011@
हवलदार राकेश रलिया	(18006841एन	अब जेसी -340163पी)	31102011#
हवलदार लंगोल्लजम सुरजीत	(15341796एफ	अब जेसी -340164एक्स)	30062012\$
हवलदार नसीब सिंह	(1483454एन	अब जेसी -340165ए)	01012013*
हवलदार शौकत अली	(1483457एफ	अब जेसी -340166एच)	01022013&
हवलदार रोहिताश कुमार	(1483485एन	अब जेसी -340167एल)	01022013&
हवलदार पुष्कर सिंह	(1483497एच	अब जेसी -340168एन)	01022013&
हवलदार अजय कुमार राय	(1483504एन	अब जेसी -340169डब्ल्यू)	01022013&
हवलदार दुर्गा बहादुर खडका	(1483509एम	अब जेसी -340170एल)	01022013&
हवलदार प्रेमानंदा राय	(1483582एल	अब जेसी -340171एन)	01022013&
हवलदार सरत चंद्र नाथ	(1483592पी	अब जेसी -340172डब्ल्यू)	01022013&
हवलदार राजेन्द्र सिंह	(1483610एम	अब जेसी -340173वाई)	01022013&
हवलदार कृष्ण पाल सिंह	(1483614एच	अब जेसी -340174एफ)	01022013&
हवलदार सुरिंदर सिंह	(1483651डब्ल्यू	अब जेसी -340175के)	01022013&
हवलदार रंजीत प्रसाद दुबे	(1483670एफ	अब जेसी -340176एम)	01022013&

## नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में

हवलदार अजरूल हसन	(15335930एल	अब जेसी -340177पी)	01102012%
हवलदार अजोय कुमार साहा	(1492765एच	अब जेसी -340178एक्स)	15122012+
हवलदार नागेन्द्र सिंह	(15336130वाई	अब जेसी -340179ए)	01012013*
हवलदार रमेश प्रसाद रॉय	(1485802एच	अब जेसी -340180पी)	15012013^

## नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में

हवलदार विनय कुमार सिंह	(15336016एफ	अब जेसी -340181एक्स)	01022013&
हवलदार विजय सिंह यादव	(15336041ए	अब जेसी -340182ए)	01022013&
हवलदार जगवीर सिंह	(15336161वाई	अब जेसी -340183एच)	01022013&
हवलदार ईश्वर सिंह	(15336165पी	अब जेसी -340184एल)	01022013&
हवलदार जमिन चंद्रा रॉय	(15336169एल	अब जेसी -340185एन)	01022013&

## नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार शम्भू होरे	(1489628वाई	अब जेसी -340186डब्ल्यू)	01022013&
-------------------	-------------	-------------------------	-----------

## नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार राकेश कुमार श्रीवास्तव	(1482929ए	अब जेसी -340187वाई)	01022013&
हवलदार राजेश कुमार राणा	(1482489एक्स	अब जेसी -340188एफ)	01022013&
हवलदार राधे श्याम	(1483719एम	अब जेसी -340189के)	01022013&
हवलदार मिलन कुमार बेरा	(1488009वाई	अब जेसी -340190वाई)	01022013&



हवलदार जितेंद्र सिंह	(1488033पी	अब जेसी -340191एफ)	01022013&
हवलदार पी एम निर्मल कुमार	(1488048एक्स	अब जेसी -340192के)	01022013&
@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2011).			
# (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अक्टूबर 2011).			
\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जून 2012).			
% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012).			
+ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2012).			
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013).			
^ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जनवरी 2013).			
& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013).			

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार योगेंद्र कुमार	(1497305एल	अब जेसी -340194पी)	06032013@
हवलदार ललित कुमार	(1483470एल	अब जेसी -340195एक्स)	01022013#
हवलदार इंदरबीर सिंह चौहान	(1483487वाई	अब जेसी -340196ए)	01022013#
हवलदार पबित्रा हती बरूआ	(1483688एक्स	अब जेसी -340197एच)	01022013#
हवलदार पवनवीर सिंह	(1483698एफ	अब जेसी -340198एल)	01032013\$
हवलदार दलजीत सिंह	(1483735के	अब जेसी -340199एन)	01032013\$
हवलदार महेश चंद्र जोशी	(1483752के	अब जेसी -340200एक्स)	02032013\$
हवलदार गुलशन अली	(15335392एच	अब जेसी -340201ए)	01032013\$
हवलदार जसबीर	(15339687डब्ल्यू	अब जेसी -340202एच)	01042013\$
हवलदार बलहार सिंह	(1482219एच	अब जेसी -340203एल)	01032013\$
हवलदार अमरजीत सिंह	(1483238ए	अब जेसी -340204एन)	01032013\$
हवलदार मुन्ना लाल सिंह	(1483278एफ	अब जेसी -340205डब्ल्यू)	02032013\$
हवलदार स्वपन कुमार दे	(1483793एन	अब जेसी -340206वाई)	21032013\$
हवलदार अरविंद कुमार तिवारी	(1483804पी	अब जेसी -340207एफ)	01032013\$
हवलदार बिश्वनाथ दास	(1483830डब्ल्यू	अब जेसी -340208के)	01032013\$
हवलदार महेंद्र चंद्र नाथ	(1483844डब्ल्यू	अब जेसी -340209एम)	01032013\$
हवलदार अमरजीत सिंह	(1483858डब्ल्यू	अब जेसी -340210एफ)	01032013\$

## नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में

हवलदार अमित कुमार	(15336158वाई	अब जेसी -340211के)	18032013#
हवलदार करमवीर	(15336177के	अब जेसी -340212एम)	01032013\$
हवलदार अमित कुमार शर्मा	(15336179पी	अब जेसी -340213पी)	01032013\$
हवलदार गजेंद्र सिंह	(15336185एच	अब जेसी -340214एक्स)	01032013\$
हवलदार अमनदीप सिंह	(15336188डब्ल्यू	अब जेसी -340215ए)	01032013\$
हवलदार गणेश कुमार चौधरी	(15336189वाई	अब जेसी -340216एच)	01032013\$
हवलदार बिपिन कुमार पांडे	(15336193एफ	अब जेसी -340217एल)	01032013\$

## नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार सुब्रता कुमारा मिट्टया	(1488028के	अब जेसी -340218एन)	25022013\$
हवलदार संतोष सिंह तोमर	(1488091वाई	अब जेसी -340219डब्ल्यू)	01032013\$
हवलदार कपिल देव बिष्ट	(1488172वाई	अब जेसी -340220एल)	01032013\$
हवलदार विमल चंदर	(1488174के	अब जेसी -340221एन)	01032013\$
हवलदार हरीश चंद्र	(1488197एल	अब जेसी -340222डब्ल्यू)	01032013\$
हवलदार निरंजन सिंह	(1488236वाई	अब जेसी -340223वाई)	01032013\$

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अक्टूबर 2012).

# (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013).

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013).

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार जोगिंदर सिंह	(1483430के	अब जेसी -340224एफ)	01032013#
हवलदार रमेश कुमार	(1483785पी	अब जेसी -340225के)	19042013#
हवलदार चंद्र भूषण कुमार	(1483937एल	अब जेसी -340226एम)	01042013\$
हवलदार अवधेश कुमार त्रिपाठी	(1483945के	अब जेसी -340227पी)	12042013\$
हवलदार बिश्वानाथ देबनाथ	(1483958एफ	अब जेसी -340228एक्स)	01042013\$
हवलदार अशोक कुमार	(1483993के	अब जेसी -340229ए)	01042013\$
हवलदार शक्ति चौधरी	(1483998एच	अब जेसी -340230पी)	01042013\$
हवलदार विनोद कुमार सिंह	(1484015पी	अब जेसी -340231एक्स)	03042013\$
हवलदार सुनील कुमार सिंह	(1484048ए	अब जेसी -340232ए)	01042013\$
हवलदार रणबीर सिंह	(1484060एफ	अब जेसी -340233एच)	01042013\$
हवलदार बहादुर राम	(1484089के	अब जेसी -340234एल)	01042013\$
हवलदार सजल कुमार बासु	(1484093एम	अब जेसी -340235एन)	01042013\$
हवलदार सुशांत पात्रा	(1484101ए	अब जेसी -340236डब्ल्यू)	01042013\$
हवलदार सतपाल सिंह	(1484111के	अब जेसी -340237वाई)	01042013\$
हवलदार गुरमीत सिंह	(1484113पी	अब जेसी -340238एफ)	01042013\$
हवलदार लालू बाबू शर्मा	(1484124एफ	अब जेसी -340239के)	01042013\$
हवलदार कृष्ण कुमार	(1484179एन	अब जेसी -340240वाई)	01042013\$
हवलदार मोहन सिंह	(1484197एन	अब जेसी -340241एफ)	12042013\$
हवलदार अमरजीत सिंह	(1484200एच	अब जेसी -340242के)	01042013\$
हवलदार हरजिंदर सिंह	(1484230ए	अब जेसी -340243एम)	08042013\$
हवलदार राज किशोर सिंह	(1484233एन	अब जेसी -340244पी)	02042013\$
हवलदार हरदयाल सिंह	(1484241एम	अब जेसी -340245एक्स)	01042013\$
हवलदार स्वपन कुमार संत्रा	(1484272एम	अब जेसी -340246ए)	01042013\$

हवलदार सचिन सिंह	(15335623एन	अब जेसी -340247एच)	01042013\$
हवलदार कुलदीप सिंह	(1483773ए	अब जेसी -340248एल)	01042013\$
हवलदार लक्ष्मण सिंह	(1484041डब्ल्यू	अब जेसी -340249एन)	01042013\$
हवलदार राम सिंह	(1484287पी	अब जेसी -340250एच)	03042013\$
हवलदार भजन सिंह	(1484290पी	अब जेसी -340251एल)	01042013\$
हवलदार मोहन सिंह जरमाल	(1484309एच	अब जेसी -340252एन)	08042013\$
हवलदार रमेश सिंह बोरा	(1484313एल	अब जेसी -340253डब्ल्यू)	02042013\$
हवलदार जगजीवन सिंह	(1484319एम	अब जेसी -340254वाई)	01042013\$
हवलदार मंगला प्रसाद पांडेय	(1484327एल	अब जेसी -340255एफ)	01042013\$
हवलदार शिम्भु सिंह	(1484360एच	अब जेसी -340256के)	01042013\$

## नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में

हवलदार बिमल चंद्र	(15336012एल	अब जेसी -340257एम)	01042013\$
हवलदार राज किशोर	(15336194के	अब जेसी -340258पी)	01042013\$
हवलदार अवधेश कुमार कुशवाहा	(15336199एच	अब जेसी -340259एक्स)	01042013\$
हवलदार ए लक्ष्मण	(15336201पी	अब जेसी -340260एम)	01042013\$
हवलदार सेवले अरुण मारुति	(6390310एन	अब जेसी -340261एम)	01042013\$
हवलदार अरविंद सिंह यादव	(15336205एल	अब जेसी -340262एक्स)	01042013\$
हवलदार प्रकाश कुमार मिश्रा	(15336207डब्ल्यू	अब जेसी -340263ए)	01042013\$
हवलदार आत्मा प्रसाद मौर्या	(15336218एच	अब जेसी -340264एच)	01042013\$
हवलदार गनाना सेकरन के	(15336219एल	अब जेसी -340265एल)	01042013\$
हवलदार जितेन सामल	(15336220ए	अब जेसी -340266एन)	01042013\$
हवलदार राज सिंह	(15336222एल	अब जेसी -340267डब्ल्यू)	01042013\$

## नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार विकास सिंह	(1489902एल	अब जेसी -340268वाई)	01042013\$
हवलदार दीप कुमार पांडेय	(1489949डब्ल्यू	अब जेसी -340269एफ)	01042013\$
हवलदार महेश कुमार शर्मा	(1489954एफ	अब जेसी -340270डब्ल्यू)	02042013\$
हवलदार योगेन्द्र चंद्र जोशी	(1489905एफ	अब जेसी -340271वाई)	01042013\$

## (नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में)

हवलदार राजेंद्र मोहन पुरी	(1482343के	अब जेसी -340272एफ)	09042013@
हवलदार राज करन सिंह	(1488025डब्ल्यू	अब जेसी -340273के)	18042013@
हवलदार सुभाष चंद्र	(1488262ए	अब जेसी -340274एम)	01042013\$
हवलदार दुन्नी चंद्र	(15348126एच	अब जेसी -340275पी)	01042013\$

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 2013).

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013).

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013).

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार धर्मेन्द्र सिंह	(15345712ए	अब जेसी -340434एफ)	13092013\$
हवलदार विरेन्द्र सिंह रावत	(1482447एल	अब जेसी -340435के)	02092013@
हवलदार अवतार सिंह	(1482462ए	अब जेसी -340436एम)	12092013@
हवलदार ददन सिंह	(1482515एन	अब जेसी -340437पी)	04092013@
हवलदार उमेश कुमार	(1482525एक्स	अब जेसी -340438एक्स)	05092013@
हवलदार इकबाल सिंह	(1482849एच	अब जेसी -340439ए)	01092013@
हवलदार मोहन सिंह भंडारी	(1483474एफ	अब जेसी -340440पी)	14102013#

## (नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में)

हवलदार एस जी नारायणन	(1486325वाई	अब जेसी -340441एक्स)	14102013%
हवलदार धर्मेन्द्र सिंह	(15337634वाई	अब जेसी -340442ए)	24082013\$
हवलदार मनोज कुमार	(15338286 पी	अब जेसी -340443एच)	01092013@
हवलदार विनोद बी	(15338399एक्स	अब जेसी -340444एल)	02092013@
हवलदार राजीब सिंह	(15338223एम	अब जेसी -340445एन)	07092013&

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012).

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013).

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013).

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2013).

# (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013).

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार बिपिन कुमार सिंह	(1483432पी	अब जेसी -340391एक्स)	02092013@
हवलदार सुधीर एन	(15344094एन	अब जेसी -340392ए)	10092013#
हवलदार मनोज कुमार सिंह	(1483340एच	अब जेसी -340393एच)	26082013\$
हवलदार भूपेन्द्र कुमार	(1482436वाई	अब जेसी -340394एल)	02092013&
हवलदार सतवीर सिंह	(1482459ए	अब जेसी -340395एन)	02092013&
हवलदार बद्रीश प्रसाद	(1482475एक्स	अब जेसी -340396डब्ल्यू)	02092013&
हवलदार रणबीर सिंह	(1482493ए	अब जेसी -340397वाई)	02092013&
हवलदार अरविंद सिंह	(1482539एक्स	अब जेसी -340398एफ)	02092013&
हवलदार बिभूति भूषण महापात्रा	(1482546एन	अब जेसी -340399के)	01092013&
हवलदार प्रदीप कुमार नेगी	(1482617के	अब जेसी -340400एन)	01092013&
हवलदार रविंदर सिंह	(1482647एफ	अब जेसी -340401डब्ल्यू)	03092013&
हवलदार परवेश कुमार	(1482658एन	अब जेसी -340402वाई)	01092013&
हवलदार अनूप कुमार खान	(1482679के	अब जेसी -340403एफ)	01092013&
हवलदार मेहरवान सिंह	(1482738एल	अब जेसी -340404के)	01092013&

हवलदार संजीत सिंह	(1482747एम	अब जेसी -340405एम)	02092013&
हवलदार ब्रह्मा चट्टोपाध्याय	(1482769एल	अब जेसी -340406पी)	01092013&
हवलदार सरकाले प्रकाश एकनाथ	(1482787एन	अब जेसी -340407एक्स)	02092013&
हवलदार अशोक गराई	(1482801पी	अब जेसी -340408ए)	02092013&
हवलदार राकेश सिंह	(1482880पी	अब जेसी -340409एच)	01092013@
हवलदार पुष्कर सिंह	(1482906वाई	अब जेसी -340410एक्स)	02092013&
हवलदार संजय कुमार पांडे	(1482946ए	अब जेसी -340411ए )	02092013&
हवलदार राजीव कुमार त्रिवेदी	(1482948एल	अब जेसी -340412एच)	01092013&
हवलदार दिनेश कुमार वर्मा	(1482965एल	अब जेसी -340413एल)	02092013&
हवलदार सदानंद पासवान	(1482998डब्ल्यू	अब जेसी -340414डब्ल्यू)	01092013&
हवलदार राजबिंदर सिंह पुनी	(1483078एल	अब जेसी -340415डब्ल्यू)	01092013&
हवलदार नौरंग सिंह	(1483102डब्ल्यू	अब जेसी -340416वाई)	01092013&

नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में

हवलदार मोहम्मद शमशेर	(15336113वाई	अब जेसी -340417एफ)	22082013#
हवलदार हरेंदर पाल	(15338257ए	अब जेसी -340418के)	02092013&
हवलदार मुकेश कुमार	(15338323एक्स	अब जेसी -340419एम)	02092013&
हवलदार विजय पाल सिंह पुनिया	(15338334के	अब जेसी -340420एफ)	02092013&
हवलदार दिपांडु पाठक	(15338410एल	अब जेसी -340421के)	02092013&
हवलदार सन्नी टी	(15338412डब्ल्यू	अब जेसी -340422एम)	02092013&
हवलदार बबलू कुमार मैती	(15338448पी	अब जेसी -340423पी)	01092013&
हवलदार श्याम प्रसाद सरकार	(15338457डब्ल्यू	अब जेसी -340424एक्स)	02092013&
हवलदार प्रकाश रोय	(15338489वाई	अब जेसी -340425ए)	02092013&
हवलदार राज कुमार बनर्जी	(15338490एन	अब जेसी -340426एच)	02092013&
हवलदार राम प्रकाश सिंह	(15338277एन	अब जेसी -340427एल)	02092013&
हवलदार मोहम्मद मतिउर रहमान	(15338494के	अब जेसी -340428एन)	02092013&
हवलदार तनमय बिस्वास	(15338530के	अब जेसी -340429डब्ल्यू)	02092013&
हवलदार बिस्वजीत अदक	(15338531एम	अब जेसी -340430एल)	01092013&

(नायब सूबेदार (एस के टी) रैंक में)

हवलदार राघवेंद्र सिंह	(1490233के	अब जेसी -340431एन)	02092013&
-----------------------	------------	--------------------	-----------

(नायब सूबेदार क्लर्क (आई एम) के रैंक में)

हवलदार निकम गोरखनाथ उत्तम	(1485238वाई	अब जेसी -340432डब्ल्यू)	24082013#
---------------------------	-------------	-------------------------	-----------

(नायब सूबेदार (क्लर्क (सर्वे) के रैंक में)

हवलदार अच्युता नन्दा दास	(1488036एच	अब जेसी -340433वाई)	01092013&
--------------------------	------------	---------------------	-----------

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013).

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जून 2013).

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अगस्त 2013).

&(नायब सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013).

## (नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में)

हवलदार राजीव कुमार	(15337400पी	अब जेसी -340367एफ)	22082013@
हवलदार डिगर सिंह थापा	(1484464के	अब जेसी -340368के)	29072013@
हवलदार अमनदीप सिंह	(15341134वाई	अब जेसी -340369एम)	03082013@
हवलदार संजय कुमार सिंह	(1484009एफ	अब जेसी -340370एफ)	01072013#
हवलदार जय राम सिंह	(1482093एन	अब जेसी -340371के)	01072013#

## (नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में)

हवलदार शिवाप्रसाद बी	(1486186ए	अब जेसी -340372एम)	21082013&
हवलदार कदम संजय धान सिंह	(15335882डब्ल्यू	अब जेसी -340373पी)	29082013&
हवलदार राजेश कुमार वरियाल	(15336133एम	अब जेसी -340374एक्स)	22082013&
हवलदार सोनू कुमार	(15336182पी	अब जेसी -340375ए)	21082013&
हवलदार अजय कुमार	(15336275के	अब जेसी -340376एच)	23082013&
हवलदार सुमित कुमार	(15338156एम	अब जेसी -340377एल)	01082013\$
हवलदार राकेश	(15338171एफ	अब जेसी -340378एन)	01082013\$
हवलदार प्रवीन कुमार	(15338178एल	अब जेसी -340379डब्ल्यू)	01082013\$
हवलदार अतुल वोहरा	(15338191पी	अब जेसी -340380एल)	01082013\$
हवलदार देवेन्द्र सिंह शेखावत	(15338202डब्ल्यू	अब जेसी -340381एन)	01082013\$
हवलदार जितेंद्र ध्यानी	(15338247डब्ल्यू	अब जेसी -340382डब्ल्यू)	01082013\$
हवलदार राजेंद्र जोशी	(15338252एफ	अब जेसी -340383वाई)	01082013\$

## (नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में)

हवलदार कदम निवास नारायण	(1490074एक्स	अब जेसी -340384एफ)	01082013\$
हवलदार ओम प्रकाश सिंह	(1485888एम	अब जेसी -340385के)	01082013\$
हवलदार श्याम कुमार सिन्हा	(1486552वाई	अब जेसी -340386एम)	01082013\$
हवलदार मोहम्मद अबुल काशेम	(1485769डब्ल्यू	अब जेसी -340387पी)	01082013\$

## (नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में)

हवलदार हर्ष बर्धन सिंह	(1488972एक्स	अब जेसी -340388एक्स)	01082013\$
हवलदार विजय सिंह रावत	(15348127एल	अब जेसी -340389ए)	01082013\$
हवलदार सूर्य प्रकाश सेमवाल	(15348128एन	अब जेसी -340390पी)	01082013\$

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013).

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जून 2013).

# (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013).

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013).

## (नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में)

हवलदार अमित परमाणिक	(15341592पी	अब जेसी -340341एम)	30072013@
हवलदार दलबीर सिंह	(15343536पी	अब जेसी -340342पी)	30072013@

हवलदार ललित कुमार	(15344394पी	अब जेसी -340343एक्स)	30072013@
हवलदार पवन कुमार	(1483834एम	अब जेसी -340344ए)	01062013@
हवलदार देवानंद	(1481623एल	अब जेसी -340345एच)	01072013\$
हवलदार मनमोहन सिंह	(1481626वाई	अब जेसी -340346एल)	01072013\$
हवलदार राजेश	(1481902डब्ल्यू	अब जेसी -340347एन)	03072013\$
हवलदार सुरेश कुमार साहू	(1481933डब्ल्यू	अब जेसी -340348डब्ल्यू)	02072013\$
हवलदार विनोद कुमार चौहान	(1481938पी	अब जेसी -340349वाई)	01072013\$
हवलदार दल बहादुर थापा	(1481946एन	अब जेसी -340350एन)	01072013\$
हवलदार जय प्रकाश सिंह	(1481974ए	अब जेसी -340351डब्ल्यू)	01072013\$
हवलदार गुरदीप सिंह	(1481989एच	अब जेसी -340352वाई)	01072013\$
हवलदार विनोद कुमार	(1482152पी	अब जेसी -340353एफ)	01072013\$
हवलदार हरदीत सिंह	(1482272एन	अब जेसी -340354के)	02072013\$
हवलदार प्रकाश कुमार	(1482280एम	अब जेसी -340355एम)	01072013\$
हवलदार अनुज कुमार	(1482281पी	अब जेसी -340356पी)	01072013\$
हवलदार सर्वेश कुमार पाल	(1482146एफ	अब जेसी -340357एक्स)	01072013\$
हवलदार उग्र सेन सिंह	(1482434एन	अब जेसी -340358ए)	01072013\$

(नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में)

हवलदार संतोष कुमार	(15337620वाई	अब जेसी -340359एच)	01072013\$
हवलदार मृत्युंजय कुमार शर्मा	(15337623एम	अब जेसी -340360एक्स)	16072013\$
हवलदार कबिंद्र कुमार सिंह	(15337653के	अब जेसी -340361ए)	04072013\$
हवलदार यादव राकेश कुमार हरिनाथ	(15337679वाई	अब जेसी -340362एच)	01072013\$
हवलदार ढाकरे रविंद्र सिंह	(15337681डब्ल्यू	अब जेसी -340363एल)	01072013\$
हवलदार रोशन कुमार रावत	(15338153वाई	अब जेसी -340364एन)	02072013\$
हवलदार दरविंदर कुमार	(15338154एफ	अब जेसी -340365डब्ल्यू)	01072013\$

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार कालू सिंह	(1490068के	अब जेसी -340366वाई)	06072013\$
------------------	------------	---------------------	------------

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013).

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013).

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार रवि दास	(1484038डब्ल्यू	अब जेसी -340311पी)	01042013@
हवलदार विजय कुमार पांडेय	(1484508डब्ल्यू	अब जेसी -340312एक्स)	01062013\$
हवलदार अशोक कुमार	(1484532एम	अब जेसी -340313ए )	01062013\$
हवलदार मंगल सिंह	(1484590डब्ल्यू	अब जेसी -340314एच)	01062013\$
हवलदार यशवंत सिंह	(1484607वाई	अब जेसी -340315एल)	01062013\$

हवलदार रंजीत सिंह राठौर	(1484608एफ	अब जेसी -340316एन)	03062013\$
हवलदार सुरेश सिंह	(1484640डब्ल्यू	अब जेसी -340317डब्ल्यू)	01062013\$
हवलदार गंगा सिंह	(1484645पी	अब जेसी -340318वाई)	01062013\$
हवलदार संजीव कुमार	(1484646एक्स	अब जेसी -340319एफ)	01062013\$
हवलदार विनोद कुमार सिंह	(1484653एन	अब जेसी -340320डब्ल्यू)	01062013\$
हवलदार अनिल कुमार सिंह	(1481624एन	अब जेसी -340321वाई)	01062013\$
हवलदार अशोक कुमार सिंह	(1483932एम	अब जेसी -340322एफ)	03062013\$
हवलदार अजय कुमार	(1494504एन	अब जेसी -340323के)	01062013\$
हवलदार श्याम लाल	(15341507एफ	अब जेसी -340324एम)	03062013\$
हवलदार असगर हसन	(15338761ए	अब जेसी -340325पी)	01062013\$
हवलदार अंगद कुमार प्रसाद	(15338062पी	अब जेसी -340326एक्स)	01062013\$
हवलदार मुकेश कुमार सिंह	(15337716एफ	अब जेसी -340327ए)	01062013\$
हवलदार अमित कुमार सिंह	(15339656डब्ल्यू	अब जेसी -340328एच)	01062013\$
हवलदार भूपिंदर सिंह	(15341170के	अब जेसी -340329एल)	01062013\$
हवलदार जसविंदर सिंह धनोआ	(15341585वाई	अब जेसी -340330ए)	01062013\$
हवलदार शेर सिंह	(1481531वाई	अब जेसी -340331एच)	01062013\$
हवलदार उमा शंकर सरोज	(1484913एफ	अब जेसी -340332एल)	01062013\$

नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में

हवलदार गुरुपाडा बोउरी	(15336301ए	अब जेसी -340333एन)	01062013\$
हवलदार राजबीर सिंह तोमर	(15337435एल	अब जेसी -340334डब्ल्यू)	01062013\$
हवलदार आर प्रवीन नायर	(15337571एफ	अब जेसी -340335वाई)	01062013\$
हवलदार मुकेश कुमार	(15337618एफ	अब जेसी -340336एफ)	01062013\$

नायब सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

हवलदार नितेश कुमार शर्मा	(1490065डब्ल्यू	अब जेसी -340337के)	01062013\$
--------------------------	-----------------	--------------------	------------

(नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में)

हवलदार हरीष चंद्रा जोशी	(1488246एच	अब जेसी -340338एम)	03062013\$
हवलदार राकेश शाह	(1488265एन	अब जेसी -340339पी)	01062013\$
हवलदार मोहम्मद मन्नन अली खान	(1488368एम	अब जेसी -340340के)	25062013\$

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013).

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013).

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार शिवा सेवक कन्नौजिया	(1483575पी	अब जेसी -340276एक्स)	08052013@
हवलदार अतुल कुमार सिंह	(1483843एन	अब जेसी -340277ए)	01032013#
हवलदार रामजी प्रसाद सिंह	(1484363डब्ल्यू	अब जेसी -340278एच)	01052013\$
हवलदार दीप नारायण राय चौधरी	(1484373ए	अब जेसी -340279एल)	01052013\$



हवलदार ताजबर सिंह	(1484468ए	अब जेसी -340280ए)	03052013\$
हवलदार उमेश चंद्र फुलेरा	(1484469एच	अब जेसी -340281एच)	01052013\$
हवलदार बहादुर सिंह	(1484478के	अब जेसी -340282एल)	01052013\$
हवलदार जीवन कुमार	(1484497पी	अब जेसी -340283एन)	01052013\$
नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में			
हवलदार शेख सिनु अहमद मिनु अहमद	(1486176डब्ल्यू	अब जेसी -340284डब्ल्यू)	20052013%
हवलदार एस कुमार	(6390459पी	अब जेसी -340285वाई)	14052013%
हवलदार विजय शंकर	(15336085एक्स	अब जेसी -340286एफ)	13052013%
हवलदार अजय प्रताप सिंह	(15336087एच	अब जेसी -340287के)	18052013%
हवलदार अभिनव कुमार	(15336174डब्ल्यू	अब जेसी -340288एम)	16052013%
हवलदार कपिल कुमार मलिक	(15336183एक्स	अब जेसी -340289पी)	13052013%
हवलदार कुलदीप सिंह	(15336190एन	अब जेसी -340290के)	27052013%
हवलदार अनुस्तूप सरकार	(15336202एक्स	अब जेसी -340291एम)	14052013^
हवलदार मंदीप सिंह	(15336242वाई	अब जेसी -340292पी)	01052013\$
हवलदार राजेंद्र कुमार साहनी	(15336200एम	अब जेसी -340293एक्स)	01052013\$
हवलदार गवास नारायण पांडूरंग	(15336252एच	अब जेसी -340294ए)	01052013\$
हवलदार सुदेश कुमार सिंह	(15336255डब्ल्यू	अब जेसी -340295एच)	14052013\$
नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में			
हवलदार मानश बनर्जी	(15336278एक्स	अब जेसी -340296एल)	01052013\$
हवलदार प्रदीप कुमार	(15336288एफ	अब जेसी -340297एन)	02052013\$
हवलदार सुरा भास्करा राव	(15336292के	अब जेसी -340298डब्ल्यू)	01052013\$
नायब सूबेदार क्लर्क (आई एम) के रैंक में			
हवलदार शंकर सिंह	(1485055एच	अब जेसी -340299वाई)	20052013%
नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में			
हवलदार तरुण कुमार शर्मा	(1489746एम	अब जेसी -340300एच)	01052013\$
हवलदार मंकु सुब्बैआह	(1489995एल	अब जेसी -340301एल)	01052013\$
नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में			
हवलदार बलवंत सिंह बनौला	(1488357ए	अब जेसी -340302एन)	01052013\$
हवलदार ब्रिजेश शर्मा	(1488762एक्स	अब जेसी -340303डब्ल्यू)	01052013\$
हवलदार काजल खत्री	(1488811पी	अब जेसी -340304वाई)	01052013\$
हवलदार रमेश सिंह बिष्ट	(1488814एच	अब जेसी -340305एफ)	01052013\$
हवलदार पवन सिंह	(1488828एच	अब जेसी -340306के)	01052013\$

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 फरवरी 2013).

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013).

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मार्च 2013).

^(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013).

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013).

		(नायब सूबेदार (आर० टी०) के रैंक में)		
सिपाही	मांगा सिंह	(2496247डब्ल्यू	अब जेसी —339512एफ)	07052011#
सिपाही	हरे कृष्णा मिश्रा	(14662349एन	अब जेसी —339513के)	07052011#
लांसनायक	छोटमल शर्मा	(15684620एच	अब जेसी —339770एफ)	04022012\$
आर आर टी	ऊधव अनूप	(339647एच	अब जेसी —339647एच)	04022012\$
आर आर टी	प्रवीण सीताराम गौडे	(339646ए	अब जेसी —339646ए)	04022012\$
लांसनायक	प्रवेश कुमार दीक्षित	(15772696एल	अब जेसी —339988एन)	30062012@
गनर	हरीष चंद्र मिश्रा	(15202459एम	अब जेसी —339989डब्ल्यू)	30062012@
लांसनायक	मंदीप सिंह	(15349467ए	अब जेसी —339990एल)	30062012@

# नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011).

\$ नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 फरवरी 2012).

@ नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जून 2012).

मनमोहन  
अवर सचिव

-----  
थल सेना विभाग

सं. 294, दिनांक 4 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेवा विभाग

रिमाउन्ट व पशुचिकित्सा कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

निम्नलिखित एन सी ओ को नायब रिसालदार की पदोन्नतियाँ की जाती हैं :-

चंदन कुमार दफेदार (ड्रेसर)	नं 7240055 एक्स अब जे सी 797604 एम	01 अक्टूबर 2011
रविंद्रा कुमार सिंह दफेदार (ड्रेसर)	नं 7240065 एफ अब जे सी 797605 पी	01 नवम्बर 2011
जितेंद्रा कुमार सिंह दफेदार (ए डी टी)	नं 7239914 एल अब जे सी 797606 एक्स	01 दिसम्बर 2011
अशोक कुमार आर डी एम (फैरियर)	नं 7239732 एक्स अब जे सी 797607 ए	01 दिसम्बर 2011
हरि केरसन दफेदार (एल ए)	नं 7240067 एम अब जे सी 797608 एल	01 जनवरी 2012
मामतेश गर्ग दफेदार (ड्रेसर)	नं 7240072 एक्स अब जे सी 797609 एल	01 जनवरी 2012
शिवाजी पूनिया दफेदार (राइडर)	नं 7241029 एच अब जे सी 797610 अ	01 जनवरी 2012
तापस कुमार दास दफेदार (ड्रेसर)	नं 7240111 एल अब जे सी 797611 एच	01 मार्च 2012
मोमिन आर डी एम (फैरियर)	नं 7239900 एल अब जे सी 797612 एल	01 मार्च 2012

अश्वनी कुमार शर्मा दफेदार (क्लर्क)	नं 7240309 के अब जे सी 797613 एन	01 अप्रैल 2012
गोविंद सिंह अधिकारी दफेदार (क्लर्क)	नं 7240349 एल अब जे सी 797614 डब्ल्यू	01 अप्रैल 2012
मो. रेकिबुद्दिन अहमद दफेदार (क्लर्क)	नं 7240370 एन अब जे सी 797615 वाई	01 अप्रैल 2012
हरूसिकेशा बिशोयी दफेदार (क्लर्क)	नं 7240460 पी अब जे सी 797616 एफ	01 अप्रैल 2012
राम रूप जाटव दफेदार (क्लर्क)	नं 7240463 एच अब जे सी 797617 के	01 अप्रैल 2012
उमेश कुमार शर्मा दफेदार ( ड्रैसर)	नं 7240142 एल अब जे सी 797618 एम	01 अप्रैल 2012
उधदे मिलिंद पुंदिलक राव दफेदार (एल ए)	नं 7240268 एल अब जे सी 767619 पी	01 अप्रैल 2012
महेंद्रा पाल दफेदार ( ड्रैसर)	नं 7240204 ए अब जे सी 767620 के	01 अप्रैल 2012
अरविंद सिंह दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240161 डब्ल्यू अब जे सी 797621 एम	01 अप्रैल 2012
गनपत राम बिश्नोइ दफेदार ( ड्रैसर)	नं 7240225 डब्लू अब जे सी 797622 पी	01 अप्रैल 2012
बच्चे लाल यादव दफेदार ( ड्रैसर)	नं 7240241 एन अब जे सी 797623 एक्स	01 अप्रैल 2012
जले सिंह दफेदार ( ड्रैसर)	नं 7240318 एल अब जे सी 797624 ए	01 अप्रैल 2012
गनेश राव के आर डी एम (फैरियर)	नं 7239910 पी अब जे सी 797625 एच	01 अप्रैल 2012
वेलु जी आर डी एम (फैरियर)	नं 7239974 ए अब जे सी 797626 एल	01 अप्रैल 2012
संदनाला कृष्णैआह दफेदार (क्लर्क)	नं 7240285 एल अब जे सी 797627 एन	01 मई 2012
सथीश कुमार दफेदार (क्लर्क)	नं 7240456 एम अब जे सी 797628 डब्ल्यू	01 मई 2012
सतीश कुमार दफेदार (एल ए)	नं 7240382 एच अब जे सी 797629 वाइ	01 मई 2012
बचन लाल दफेदार (एल ए)	नं 7240392 एम अब जे सी 797630 एन	01 मई 2012
प्रसाद पी पी दफेदार (एल ए)	नं 7240060 एच अब जे सी 797631 डब्ल्यू	01 मई 2012
सुखदेव धोष सेना मेडल*	नं 7239922 के अब जे सी 797632 वाई	01 मई 2012

दफेदार (ए डी टी)		
विरेंद्रा कुमार दफेदार (ए डी टी)	नं 7240172 एच अब जे सी 797633 एफ	01 मई 2012
रमेश चंद्रा आर डी एम (फैरियर)	नं 7239978 डब्ल्यू अब जे सी 797634 के	01 मई 2012
लौधे बाबासाहेब बबनराव दफेदार (क्लर्क)	नं 7240680वाइ अब जे सी 797635 एम	01 जून 2012
गोपाल सिंह दफेदार (क्लर्क)	नं 7240685 एक्स अब जे सी 797636 पी	01 जून 2012
राम स्वरूप दफेदार ( ड्रैसर)	नं 7240368 डब्ल्यू अब जे सी 797637एक्स	01 जून 2012
उदय भान यादव दफेदार (राइडर)	नं 7240136 एक्स अब जे सी 797638 ए	01 मई 2012
बलदेव राज दफेदार (राइडर)	नं 7240332 एक्स अब जे सी 797639 एच	01 जून 2012
सत्या नरायन कुमार दफेदार ( ड्रैसर)	नं 7240404 डब्लू अब जे सी 797640 एक्स	01 जून 2012
राम कृष्ण चौरसिया दफेदार ( ड्रैसर)	नं 7240397 एल अब जे सी 797641 ए	01 जून 2012
धनजय सिंह दफेदार (एल ए)	नं 7240457 पी अब जे सी 797642 एच	01 जून 2012
मलकित सिंह दफेदार ( ड्रैसर)	नं 7240461 एक्स अब जे सी 797643 एल	01 जून 2012
सुरिंदर कुमार दफेदार (राइडर)	नं 7240388 के अब जे सी 797644 एन	01 जुलाई 2012
हरजी लाल गुरजर दफेदार (राइडर)	नं 7240447 एल अब जे सी 797645 डब्ल्यू	01 जुलाई 2012
रामायोध्या सिंह दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240398 एन अब जे सी 797646 वाई	01 जुलाई 2012
एल दिलिप कुमार रेड्डी दफेदार (क्लर्क)	नं 7240682 के अब जे सी 797647 एफ	01 अगस्त 2012
विनोद कुमार दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240434 एन अब जे सी 797648 के	01 अगस्त 2012
सुल्तान सिंह रंगा दफेदार (ए डी टी)	नं 7240192 डब्ल्यू अब जे सी 797649 एम	01 अगस्त 2012
जगविर सिंह दफेदार (राइडर)	नं 7240450 एल अब जे सी 797650 एफ	01 अगस्त 2012
विजय प्रकाश शर्मा दफेदार (फैरियर)	नं 7240228 के अब जे सी 797651 के	01 अगस्त 2012

रेखी शिवाजी दफेदार (क्लर्क)	नं 7240754 एच अब जे सी 797652 एम	01 सितम्बर 2012
समिर कुमार करमाकर दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240550 डब्ल्यू अब जे सी 797653 पी	01 सितम्बर 2012
प्रविंद्रा कुमार दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240547 डब्ल्यू अब जे सी 797654 एक्स	01 सितम्बर 2012
विरेंद्रा कूमार दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240557 ए अब जे सी 797655 ए	01 सितम्बर 2012
संजय कूमार दुबे दफेदार (राइडर)	नं 7240454 एफ अब जे सी 797656 एच	01 सितम्बर 2012
राजन कुमार दफेदार (राइडर)	नं 7240459 ए अब जे सी 797657 एल	01 सितम्बर 2012
जय सिंह दफेदार (राइडर)	नं 7240507 पी अब जे सी 797658 एन	01 सितम्बर 2012
मनोज आर्या दफेदार (क्लर्क)	नं 5752653 एक्स अब जे सी 797659 डब्लू	01 अक्टूबर 2012
ओमवीर सिंह दफेदार (राइडर)	नं 7240558 एच अब जे सी 797660 एल	01 अक्टूबर 2012
अरनदेश कुमार दफेदार (राइडर)	नं 7240602 एफ अब जे सी 797661 एन	01 अक्टूबर 2012
गुमाना राम रैका दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240563 एन अब जे सी 797662 डब्लू	01 अक्टूबर 2012
श्यामल चंद्रा दास दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240568 एन अब जे सी 797663 वाई	01 नवम्बर 2012
अजित कुमार झा दफेदार (ए डी टी)	नं 7240234 एक्स अब जे सी 797664 एफ	01 नवम्बर 2012
नरेंद्रा कुमार सिंह दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240555 पी अब जे सी 797665 के	01 नवम्बर 2012
अरविन्द कुमार सिंह दफेदार (क्लर्क)	नं 7240700 एफ अब जे सी 797666 एम	01 नवम्बर 2012
प्रदीप थोमस दफेदार (क्लर्क)	नं 7240707 एल अब जे सी 797667 पी	01 नवम्बर 2012
मनपाल सिंह नेगी दफेदार (एल ए)	नं 7240570 के अब जे सी 797668 एक्स	01 दिसम्बर 2012
शैलेंद्रा कुमार मिश्रा दफेदार (क्लर्क)	नं 7240782 पी अब जे सी 797669 ए	01 दिसम्बर 2012
सुनिल दत्त दफेदार (राइडर)	नं 7240582 एफ अब जे सी 797670 पी	01 दिसम्बर 2012
राकेश कुमार तिवारी दफेदार (ए डी टी)	नं 7240446 एच अब जे सी 797671 एक्स	01 दिसम्बर 2012

राम कुमार दफेदार (एल ए)	नं 7240572 पी अब जे सी 797672 ए	01 जनवरी 2013
नरेद्रा कुमार चौबे दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240583 एफ अब जे सी 797673 एच	01 जनवरी 2013
वाग देविदास शंकर राव दफेदार (राइडर)	नं 724610 ए अब जे सी 797674 एल	01 जनवरी 2013
अलबर्ट सेलवन एस आर डी एम (फैरियर)	नं 7240343 के अब जे सी 797675 एन	01 जनवरी 2013
दरबारी लाल दफेदार (राइडर)	नं 7240616 एफ अब जे सी 797676 डब्ल्यू	01 फरवरी 2013
पंदुरि पैडि नायडु दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240587 एक्स अब जे सी 797677 वाई	01 फरवरी 2013
जयाराजन इ दफेदार (क्लर्क)	नं 7240755 एल अब जे सी 797678 एफ	01 मार्च 2013
सुबोध भाष्कर नेगी दफेदार (एल ए)	नं 7240451 एन अब जे सी 797679 के	01 मार्च 2013
काशी नाथ यादव दफेदार (ड्रैसर)	नं 7240589 एच अब जे सी 797680 वाई	01 मार्च 2013
ब्रज नंदन भारद्वाज दफेदार (क्लर्क)	नं 7240772 एल अब जे सी 797681 एफ	01 अप्रैल 2013
जसविंदर पाल दफेदार (एल ए)	नं 7240593 एल अब जे सी 797682 के	01 अप्रैल 2013
राम गोपाल दफेदार (फैरियर)	नं 7240358 एम अब जे सी 797683 एम	01 अप्रैल 2013

दीपक नारंग  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 295, तारीख 5 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार किशोरी प्रसाद	(जे सी-421080 के)	01 सितम्बर 2014
सूबेदार जय सिंह	(जे सी-421085 एच)	04 सितम्बर 2014'
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
सूबेदार एलदो वाई	(जे सी-421334 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
सूबेदार विनोद कुमार	(जे सी-421086 एल)	01 अक्टूबर 2014

## सूबेदार के रैंक में

नायब प्रिया रंजन कुमार	(जे सी-421580 एफ)	15 सितम्बर 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार तपस कुमार मालकर	(जे सी-421690 डब्ल्यू )	04 अगस्त 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार बाल किष्णा	(जे सी-421593 वाई)	17 सितम्बर 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार भुवा प्रसाद गुरंग	(जे सी-421844 एक्स)	22 जुलाई 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार जीवन सिंह	(जे सी-422174 एन)	06 अगस्त 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार अर्जुन देसाई	(जे सी-422201 एम)	17 सितम्बर 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार मुर्गन के	(जे सी-422240 एल)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार एम डी अली हुसैन	(जे सी-422241 एन)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार मनतोश रॉय कयेत	(जे सी-421753 एन)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार बब्बन यादव	(जे सी-421758 एम)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार उमेश चन्द्र सिंह	(जे सी-421761 एम)	25 सितम्बर 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार शिव करण सिंह	(जे सी-421762 पी)	08 सितम्बर 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार सौमन रॉय	(जे सी-421823 एफ)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार बच्चा प्रसाद सिंह	(जे सी-421824 के)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रॉय मैथ्यू	(जे सी-421784 एन)	02 सितम्बर 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार सालवी विश्वास जयराम	(जे सी-421941 पी)	07 सितम्बर 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार बूटा राम	(जे सी-422188 एन)	02 सितम्बर 2014'
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार करतार सिंह	(जे सी-422211 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रामबीर सिंह	(जे सी-421831 ए)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार पूरण कुमार सिंह	(जे सी-421832 एच)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार श्रीकुमार पी	(जे सी-421838 के)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार मोहन डोंगरे	(जे सी-421839 एम)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार करुणानीथी ए	(जे सी-421870 वाई)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार हरि किशन	(जे सी-421946 एन)	08 अक्टूबर 2014'
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)		

नायब सूबेदार राकेश सिंह	(जे सी-421884 वाई)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार सुभाष चन्द	(जे सी-422124 एच)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार लखविन्दर सिंह	(14917637 एम अब जे सी-422671 एक्स)	22 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जुलाई 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार दिनेश कुमार सिंह	(14919989 एच अब जे सी-422672 ए)	11 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जुलाई 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार परसा राम धिनवा	(14919194 पी अब जे सी-422673 एच)	01 अगस्त 2014*
हवलदार शंकर थापा	(14917734 के अब जे सी-422674 एल)	27 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार राकेन्द्रा सिंह	(14920138 एच अब जे सी-422675 एन)	01 अगस्त 2014
हवलदार संजय कुमार	(14918506 एन अब जे सी-422676 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
हवलदार अंबेरकर जगदिश राजाराम	(14918776 एच अब जे सी-422677 वाई)	23 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार राजू नेवार	(14918785 के अब जे सी-422678 एफ)	24 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार सुधीर मारवारी	(14921343 डब्ल्यू अब जे सी-422679 के)	04 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार सुरजित पी	(14922591 वाई अब जे सी-422680 वाई)	01 अगस्त 2014
हवलदार राज कुमार	(14920815 पी अब जे सी-422681 एफ)	02 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार राजेन्द्रा सिंह	(14921285 एक्स अब जे सी-422682 के)	01 अगस्त 2014
हवलदार भरत सिंह	(14921326 डब्ल्यू अब जे सी-422683 एम)	01 अगस्त 2014
हवलदार नारायण सिंह चौहान	(14921458 के अब जे सी-422684 पी)	01 अगस्त 2014
हवलदार दलविन्दर सिंह	(14921401 पी अब जे सी-422685 एक्स)	01 अगस्त 2014
हवलदार मेघनाथी महेशगिरी मनसागर	(14920877 पी अब जे सी-422686 ए)	28 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अगस्त 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार मनोज कुमार	(14921015 एच अब जे सी-422687 एच)	11 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अगस्त 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार विनेश सिंह	(14920585 एम अब जे सी-422688 एल)	01 सितम्बर 2014
हवलदार बिनोद कुमार राय	(14920944 पी अब जे सी-422689 एन)	11 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार अनिल कुमार रावत	(14918417 पी अब जे सी-422690 एच)	01 सितम्बर 2014
हवलदार राजेश कुमार साकेत	(14918455 एल अब जे सी-422691 एल)	01 सितम्बर 2014
हवलदार हरी ओम सिंह	(14919985 एम अब जे सी-422692 एन)	01 सितम्बर 2014
हवलदार बलबीर सिंह	(14919037 एच अब जे सी-422693 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014



हवलदार भोमा राम चौधरी	(14919652 ए अब जे सी-422694 वाई)	01 सितम्बर 2014
हवलदार शेख चांद बाशा	(14920757 डब्ल्यू अब जे सी-422695 एफ)	11 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार जय भगवान	(14920156 एल अब जे सी-422696 के)	09 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार महीन्दर सिंह	(14920028 एन अब जे सी-422697 एम)	01 सितम्बर 2014
हवलदार मिथिलेश कुमार	(14922664 ए अब जे सी-422698 पी)	01 सितम्बर 2014
हवलदार दिना नाथ	(14921131 एल अब जे सी-422699 एक्स)	01 सितम्बर 2014
हवलदार सुर्याबीर सिंह शेखावत	(14921352 एक्स अब जे सी-422700 एफ)	01 सितम्बर 2014

## सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

श्री सूर्य प्रकाश तिवारी	(जे सी-419752 एम)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में		
अखिला नंद मिश्रा	(जे सी-422669 ए)	29 मार्च 2014
पुष्कर मिश्रा	(जे सी-422554 एम)	28 जून 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में		
राकेश कुमार मिश्रा	(जे सी-422670 पी)	01 अगस्त 2014

## क्वचित कोर

## स्थाई रिसालदार के रैंक में

1. नायब रिसालदार रमेश चन्द (जेसी 244278एल) \*02 जून 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)
2. नायब रिसालदार विवेकन वी (जेसी 245033एफ) 01 अप्रैल 2014
3. नायब रिसालदार भगवान सिंह (जेसी 244064पी) \*20 जून 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)
4. नायब रिसालदार शिव चन्द (जेसी 244066ए) \*21 जून 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)
5. नायब रिसालदार देश राज (जेसी 244089एफ) 01 मई 2014
6. नायब रिसालदार शम्भु नाथ सिंह (जेसी 244871के) \*21 जून 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)
7. नायब रिसालदार रफीक मोहम्मद (जेसी 245150एम) \*26 मई 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)
8. नायब रिसालदार कुमेर सिंह राठोड (जेस 243985एच) \*14 जून 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)
9. नायब रिसालदार बाबू राम भदियार (जेसी 244245ए) 01 जून 2014
10. नायब रिसालदार जगवीर (जेसी 244353के) \*11 जून 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)

11. नायब रिसालदार राकेश कुमार शुक्ला (जेसी 244658के) \*06 जून 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)
12. नायब रिसालदार राजेश कुमार (जेसी 244726एम) \*03 जून 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)
13. नायब रिसालदार उमरदीन (जेसी 244742के) \*19 जुलाई 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)
14. नायब रिसालदार बलकार सिंह (जेसी 244951एफ) 01 जून 2014
15. नायब रिसालदार तारा चन्द (जेसी 245079के) 01 जून 2014
16. नायब रिसालदार सुखवंत सिंह (जेसी 245271एन) 01 जून 2014
17. नायब रिसालदार जगदिश सिंह (जेसी 245413ए) \*05 जून 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)
18. नायब रिसालदार कुमभार दयामंद शान (जेसी 245605एक्स) \*10 जून 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)
19. नायब रिसालदार वेलमुर्गन के (जेसी 245606ए) 01 जून 2014
20. नायब रिसालदार नवीन कुमार (जेसी 245618पी) \*02 जून 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)
21. नायब रिसालदार अनवर हुसैन (जेसी 245626एन) \*08 जुलाई 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)
22. नायब रिसालदार सतीश कुमार (जेसी 243941एल) 01 जुलाई 2014
23. नायब रिसालदार प्रमोद कुमार शर्मा (जेसी 244053एच) 01 जुलाई 2014
24. नायब रिसालदार राज सिंह (जेसी 244121एल) \*14 जुलाई 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)
25. नायब रिसालदार विक्रम सिंह (जेसी 244453पी) \*10 जुलाई 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)
26. नायब रिसालदार गिरिश कुमार एस (जेसी 244494वाई) \*10 जुलाई 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)
27. नायब रिसालदार कैलाश सिंह (जेसी 244707एफ) \*24 जुलाई 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)
28. नायब रिसालदार निमबालकर आनन्दराव बी (जेसी 244717एल) 01 जुलाई 2014
29. नायब रिसालदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी 244751एल) 01 जुलाई 2014
30. नायब रिसालदार अरविन्द कुमार (जेसी 244770डब्ल्यू) 01 जुलाई 2014
31. नायब रिसालदार बलवंत कुमार (जेसी 244809एक्स) \*02 जुलाई 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)
32. नायब रिसालदार आमटे बिबहीशन हरिभा (जेसी 245255डब्ल्यू) \*07 जुलाई 2014  
\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)

33	नायब रिसालदार	राकेश बी	(जेसी 245278एक्स)	*09 जुलाई 2014
	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
34	नायब रिसालदार	पृथ्वि सिंह	(जेसी 245367डब्ल्यू)	*09 जुलाई 2014
	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
35	नायब रिसालदार	नरपत सिंह सिसोदीया	(जेसी 245416एन)	01 जुलाई 2014
36	नायब रिसालदार	देव नारायण गुजर	(जेसी 245815एक्स)	01 जुलाई 2014
37	नायब रिसालदार	राकेश सिंह तोमर	(जेसी 245887एफ)	*05 जुलाई 2014
	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
38	नायब रिसालदार	गुरदेव सिंह	(जेसी 244310पी)	01 अगस्त 2014
39	नायब रिसालदार	मनोहर लाल	(जेसी 244505ए)	01 अगस्त 2014
40	नायब रिसालदार	उन्नीकृष्ण पी वी	(जेसी 244506एच)	01 अगस्त 2014
41	नायब रिसालदार	प्रकाश गिर अत्री	(जेसी 244644के)	01 अगस्त 2014
42	नायब रिसालदार	भट्ट कौशिक कुमार के ए	(जेसी244771वाई)	*14 अगस्त 2014
	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है)			
43	नायब रिसालदार	गुडु लाल	(जेसी 244773के)	01 अगस्त 2014
44	नायब रिसालदार	कमल देव कुमार सिंह	(जेसी 244774एम)	01 अगस्त 2014
45	नायब रिसालदार	गजेन्द्र सिंह तीवतिया	(जेसी 245164एम)	01 अगस्त 2014
46	नायब रिसालदार	विजय कुमार	(जेसी 245216एक्स)	01 अगस्त 2014
47	नायब रिसालदार	ए पी मधुसुदान्न	(जेसी 245250एक्स)	01 अगस्त 2014
48	नायब रिसालदार	सुरेश कान्त मिश्रा	(जेसी245368वाई)	01 अगस्त 2014
49	नायब रिसालदार	उत्तम कुमार मैती	(जेसी 245369एफ)	01 अगस्त 2014
50	नायब रिसालदार	सुरेश कुमार	(जेसी 245445एच)	01 अगस्त 2014
51	नायब रिसालदार	लुथफुर रहमान लसकर	(जेसी 244745एक्स)	01 सितम्बर 2014
52	नायब रिसालदार	रविन्दर सिंह	(जेसी 244775पी)	01 सितम्बर 2014

राजीव जौहरी  
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 296, दिनांक 5 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को वर्तमान ग्रेड से उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि (पूर्वाहन) से अगले ग्रेड में सहर्ष पदोन्नत करते हैं:-

नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु0)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
रितु गोपाल	डील	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
इशक लाल जवालिया (अनु0जा0)	डील	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011

जी0एस0 चौहान	डील	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
राजेन्द्र कुमार (अनु0जा0)	डील	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
मोहन चन्द्र जोशी	डील	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
किशोरी लाल	डील	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
योगेश कुमार	डील	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
संतराम सिंह (अनु0जा0)	डील	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
भूपेन्द्र सिंह (अनु0जा0)	डील	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
महीपाल पालीवाल (अनु0जा0)	डील	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
तपन कुमार भट्टाचार्य	डील	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
ओम प्रकाश	डील	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
सीएच नागाराजू	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
पी0 स्वर्ण लथा	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
बी0बी0 सिवकोटि	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
बी0 लखपथी (अनु0ज0जा0)	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
के0 सत्यानारायना	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011

के0एस0 यादुआ	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
टी0वी0 रमेश बाबू	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
के0 जगन मोहन	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एम0आर0के0 मोहन लाल	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
जंगम पथुरु (अनु0जा0)	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एस0के0 मोहन राव	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
के0 प्रभाकर राव	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
बी0 पोथाराजू	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
के0 रामप्रसाद	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
बी0 जॉन (अनु0ज0जा0)	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
जी0 बालाजी (अनु0ज0जा0)	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
जी0बी0 विक्रम	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
एम0 सुरेश	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
आर0 सुनील कुमार	डी0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013

पी० राजा राव (अनु०जा०)	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
एच०वी० सुब्रामनियम	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
एल० रतना कुमारी	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
सैयद अब्दुल कयूम	डी०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
डी० वेनुगोपाल	आर०सी०आई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
के० विजयाश्री	आर०सी०आई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
सी०वी०एस० प्रसन्ना कुमारी	आर०सी०आई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
नरेश कुमार	आर०सी०आई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
बी० प्रभाकर	आर०सी०आई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
बी० बलुडु	आर०सी०आई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
के०एम० ऊषा	आर०सी०आई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
वी० मुरली कृष्णा	आर०सी०आई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
सरिथा फुलमामडिकर	आर०सी०आई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
एस० मधुसूधन	आर०सी०आई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013

मुत्थू अझागन (अनु0जा0)	आर0सी0आई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
पी0 उमामहेश्वर रेड्डी	आर0सी0आई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
प्रेमनाथ किराड	आर0सी0आई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
वाई0 बालाजी	आर0सी0एम0ए0 (सामग्री) हैदराबाद	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
के0 मल्लेश्वर राव	आर0सी0एम0ए0 (मिसाइल) हैदराबाद	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
प्रतिभा दूबे	आर0सी0एम0ए0 कानपुर	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
आर0एन0 प्रसाद (अनु0जा0)	आर0सी0एम0ए0 लखनऊ	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
प्रमेश्वरी दीन पाल	आर0सी0एम0ए0 (वायु आयुध) पुणे	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
ध्रुवकान्त सिंह (अनु0जा0)	एस0ए0जी0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
जी0एस0 अधिकारी	एस0ए0जी0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
जय सिंह (अनु0जा0)	एस0ए0जी0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
जगदीश प्रसाद (अनु0जा0जा0)	सासे	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
देवी चन्द	सासे	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
बलदेव सूर्या (अनु0जा0)	सासे	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011

राजीव कुमार	सासे	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
हरपाल सिंह	सासे	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
मनोज कुमार	सासे	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
विक्रम सिंह	सासे	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
जगमोहन भरद्वाज	सासे	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
प्रताप सिंह (अनु०ज०जा०)	एस०एस०पी०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
आनन्द कुमार	एस०एस०पी०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
भारत वीर सिंह	एस०एस०पी०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
सुमेधा सूद	टी०बी०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
शिव प्रसन भगत	टी०बी०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
शारदा देवी	टी०बी०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
भजन सिंह	टी०बी०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
सुनीता कालरा	टी०बी०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
विनोद कुमार चौधरी	टी०बी०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012



दीपक छाबरा	टी0बी0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
सुरेश मदान	टी0बी0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
गुरुदीप सिंह	टी0बी0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
रोहित विवेक साहनी	टी0बी0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
एस0के0 कुलंगे	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एन0बी0 पाटिल	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
ए0बी0 थोम्बरे	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एम0डी0 जाधव	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
आर0आर0 भालसिंह	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एन0एम0 जगताप (अनु0ज0जा0)	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
ई0एफ0 नासिर	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
आर0जी0 भण्डारे	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
टी0आर0 अशोक कुमार	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
नोजर एच आई	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011

के0जी0 बीराड	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
वी0पी0 सोले	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
ए0वाई0 गायकवाड (अनु0जा0)	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एन0बी0 रामदीन	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
कश्मीर सिंह	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
ए0के0 जावले (अनु0जा0)	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
ए0बी0 शर्मा	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
बी0 सथी बाबू	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
आर0एन0 यादव	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
डी0ई0 गिरमी	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
एस0यू0 कान्डे	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
पी0सी0 अरोड़ा	वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
एस0एस0 यादव (अनु0जा0)	डी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
पवन कोल्हे (अनु0ज0जा0)	डी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013

सी0के0 वाघमारे (अनुजा0)	डी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
अमरीक सिंह	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
अश्वनी कुमार	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
गोविन्द सिंह (अनुजा0)	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
राजेन्द्र सिंह नेगी (अनुजा0जा0)	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
यश कश्यप	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
आर0सी0 नौटियाल	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
बी0डी0 जोशी (अनुजा0जा0)	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
राजेश कुमार	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
रघुवीर सिंह	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
गुलाब सिंह नेगी	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
अनिल बसनेत	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
सुशील कुमार इस्सर	लास्टेक	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
विनोद चन्द्र शर्मा	लास्टेक	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013

बी0 विजय कुमार	एम0टी0आर0डी0सी0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
एस0एस0 पवार	एन0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
विवेक अनंत सावंत	एन0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
एस0डी0 कीर	एन0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
पी0वी0 सतविल्कर	एन0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
अनिल सुधाकर पाटनकर (अनु0ज0जा0)	एन0एम0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
लाली जोसेफ (अनु0ज0जा0)	एन0पी0ओ0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
पी0 सुरेश कुमार	एन0पी0ओ0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
ए0पी0 शन्दी	एन0पी0ओ0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
वी0पी0 गोपालकृष्णन नायर	एन0पी0ओ0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
टी0 हेमलथा	एन0पी0ओ0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
एम0पी0 अलेयम्मा	एन0पी0ओ0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
पी0 जगदीश चन्द्र मेनन	एन0पी0ओ0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	03.09.2012
पी0एल0 रोसिली	एन0पी0ओ0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	03.09.2012

के०पी० कृष्णावेनी (अनु०जा०)	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
ए०सी० शिवशंकर मरार	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	04.09.2012
के०वी० सुरेन्द्रन	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
वी०आर० सुरेश बाबू	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
आर० कृष्णन (अनु०जा०)	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
एस० मधुसूदनन	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
के०एल० थामस	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
एम०के० सथीश कुमार (अनु०जा०)	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
वी०जी० राधाकृष्णन	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
पी०ए० सुकुमारन नायर	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
ए०ओ० जेस्सी	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
पी०के० शिवदासन (अनु०जा०)	एन०पी०ओ०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
के० नागेश्वर राव (अनु०ज०जा०)	एन०एस०टी०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
के०एस०के० मोहन	एन०एस०टी०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011

एम0वी0 रमन राव	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
डी0एस0 रामाराजू	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
पी0वी0 रतनाचार्युलु	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2011
ई0एस0 राजू	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
सी0एच0के0वी0 सीताराम	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
ई0बी0 अप्पाराव (अनु0जा0)	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
टी0 उमा रानी	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
डी0 भास्कर राव	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2012
के0बी0 विजया (अनु0जा0)	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
के0 उमा महेश्वर राव (अनु0जा0)	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
सी0एच0 जय राव (अनु0जा0जा0)	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
डी0वी0 रमन	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
टी चन्द्रशेखर राव (अनु0जा0)	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013
के0 सेमुएल (अनु0जा0)	एन0एस0टी0एल0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2013

पी0सी0 साहू	ओ0 एवं एम0 (एडी रेडार्स) यूनिट	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
चितरंजन दास	पी0एक्स0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
लक्ष्मीधर साहू	पी0एक्स0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
आर0एन0 दास (अनु0जा0)	पी0एक्स0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
एस0एन0 पॉल	पी0एक्स0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एस0 पाणिग्रही	पी0एक्स0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
फागू हेम्बराम (अनु0जा0)	पी0एक्स0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
एल0के0 चांद	पी0एक्स0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
बी0एन0 दत्ता	पी0एक्स0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013

नरेश विर्दी  
संयुक्त निदेशक  
(कार्मिक-टी0सी0)

#### शुद्धिपत्र

सं. 297, दिनांक 8 दिसम्बर 2014—राजपत्र क्रम सं. 31 प्रविष्टि सं. 298 दिनांक अगस्त 03-09-2013 (श्रावण 12, 1935) (31/298/13) भाग 1 खण्ड 4, वायु सेना के अंतर्गत प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित अफसर के संबंध में की गई प्रविष्टि में संशोधन किया जाता है :—

भारतीय वायु सेना

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टी एस) के स्थायी रैंक में

प्रशासनिक शाखा

वी एस इंगले (18341) 07 जून 2012 से प्रभावी इसके स्थान पर  
निम्नलिखित पढ़ा जाए

शिक्षा शाखा

वी एस इंगले (18341) 07 जून 2012 से प्रभावी

तरुण खरे  
विंग कमांडर  
जे डी पी आ-3(डी)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th December 2014

## NCC HQ/MS(D)

No. 289, dated 2nd December 2014—The under mentioned is granted the honorary rank of Colonel-in-Chief of the National Cadet Corps for the period of his appointment as Chief of the Army Staff:-

General Dalbir Singh, PVSM, UYSM, AVSM, VSM, ADC 01 Aug 2014  
 Chief of the Army Staff  
 IHQ of MoD (Army)  
 New Delhi – 110011.

SP Singh  
 Brig  
 Dy Dir Gen (MS)

## AIR BRANCH

No. 290, dated 2nd December 2014—The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/ 1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82.

## INDIAN AIR FORCE

## AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Patwari Lal Yadav (31901), Johnson John (31902), Sushant Kumar Sharma (31903), wef 04 Jul 11.  
 Fg Offr Gunjan Suman (32007), wef 15 Jul 11.

## AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Ajay Kumar (31930), Harshdeep Singh (31931), Gaurav Kukkar (31932), Deepak Yadav (31933), Vikash Kumar Yadav (31934), Rahul Kumar (31935), Rohit M Das (31936), Sagar Sharma (31937), Raviraj SR (31938), Gudla Kishan (31939), wef 04 Jul 11.

Fg Offr Shashwat Mishra (32008), wef 15 Jul 11.

Fg Offr Saurabh Gupta (32020), Ankit Joshi (32021), Vivek Rai (32022), Amit Kumar (32023), wef 17 Jul 11.

The President is pleased to grant Short Service Commission (On Probation) to the undermentioned officers of 79 AEC in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

## INDIAN AIR FORCE

## AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Sumit Goel (31894), Aditya Narayan Singh (31895), Bharat Singh (31896), Vinay Singh Chauhan (31897), Ashutosh Saini (31898), Happy Singh (31899), Suhail Abbas (31900), wef 04 Jul 11.

## AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Vivek Chauhan (31904), Ajay Pratap Singh (31905), Krishna Kumar K (31906), Priyam Varshney (31907), Parveen Kumar Hooda (31908), Abhishek Tripathi (31909), Niranjana Mohan Mude (31910), Chinmay Kiran Talhar (31911), Shah Nawaz Alam (31912), Ananya Pandey (31913), Tarun Sachdeva (31914), Yash Malik (31915), Narendhiran S (31916), Love Goyal (31917), Dennis John (31918), Bhavesh Kumar Singhal (31919), Ashish Aseeja (31920), Gaurav Sheoran (31921), Sumit Pal Singh Walia (31922), Ashwini Singh (31923), Rahul Kumar Drolia (31924), Syed Mohammad Raza (31925), Hanamant Palabhavi (31926), Najeev Kumar Sharma (31927), Deepak Kumar Singh (31928), Varad Mudgal (31929), wef 04 Jul 11.

Fg Offr Shobhit Bharadwaj (32005), wef 09 Jul 11.

Fg Offr Manoj K (32019), wef 17 Jul 11.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/ 1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82.



## INDIAN AIR FORCE

## AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Patwari Lal Yadav (31901), Gunjan Suman (32007), wef 02 Jul 12.

## AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Ajay Kumar (31930), Harshdeep Singh (31931), Gaurav Kukkar (31932), Deepak Yadav (31933), Vikash Kumar Yadav (31934), Rahul Kumar (31935), Rohit M Das (31936), Sagar Sharma (31937), Raviraj SR (31938), Gudla Kishan (31939), Shashwat Mishra (32008), Saurabh Gupta (32020), Vivek Rai (32022), Amit Kumar (32023), wef 02 Jul 12.

## AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Johnson John (31902), wef 02 Jul 12.

## AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Ankit Joshi (32021), wef 02 Jul 12.

The President is pleased to terminate the Short Service Commission (on probation) granted to the undermentioned officers of 79 AEC and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

## INDIAN AIR FORCE

## AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Sumit Goel (31894), Aditya Narayan Singh (31895), Bharat Singh (31896), Ashutosh Saini (31898), Happy Singh (31899), Suhail Abbas (31900), wef 02 Jul 12.

## AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Vivek Chauhan (31904), Ajay Pratap Singh (31905), Krishna Kumar K (31906), Priyam Varshney (31907), Parveen Kumar Hooda (31908), Abhishek Tripathi (31909), Niranjana Mohan Mude (31910), Chinmay Kiran Talhar (31911), Shah Nawaz Alam (31912), Ananya Pandey (31913), Tarun Sachdeva (31914), Yash Malik (31915), Narendhiran S (31916), Love Goyal (31917), Dennis John (31918), Bhavesh Kumar Singhal (31919), Ashish Aseeja (31920), Gaurav Sheoran (31921), Sumit Pal Singh Walia (31922), Ashwini Singh (31923), Rahul Kumar Drolia (31924), Syed Mohammad Raza (31925), Hanamant Palabhavi (31926), Deepak Kumar Singh (31928), Varad Mudgal (31929), Shobhit Bharadwaj (32005), Manoj K (32019), wef 02 Jul 12.

## AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Najeev Kumar Sharma (31927)wef 02 Jul 12.

Tarun Khare  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No 291, dated 3rd December 2014—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officers :-

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
TO BE SUBSTANTIVE LT GENERAL

Sl No	IC No	RANK	NAME	ARM	Date of Sub Lt Gen
1	IC-35109	A/LT GEN	RV KANITKAR, SM, VSM	ARMD	01.03.14
2	IC-35115	A/LT GEN	JAGBIR SINGH, SM, VSM	MECH INF	01.03.14
3	IC-35137	A/LT GEN	PM HARIZ, SM, VSM	MECH INF	01.03.14
4	IC-35173	A/LT GEN	RJ NORONHA, AVSM, SM	RAJPUT	01.03.14

5	IC-34838	A/LT GEN	JOHN A GEORGE, VSM,	ARTY	01.04.14
6	IC-34410	A/LT GEN	SPS KATEWA	ASC	21.04.14
7	IC-37247	A/LT GEN	GS CHANDEL, YSM	BIHAR	12.05.14
8	IC-35471	A/LT GEN	BIPIN RAWAT, AVSM, YSM, SM, VSM	11 GR	01.06.14
9	IC-35796	A/LT GEN	KANWAL JEET SINGH	EME	01.07.14
10	IC-38183	A/LT GEN	GURMUKH SINGH, SM, VSM	EME	01.07.14
11	IC-35479	A/LT GEN	BS NEGI, YSM, SM, VSM**	ASSAM	04.07.14
12	IC-35487	A/LT GEN	NPS HIRA, AVSM, SM	SIKH LI	04.07.14
13	IC-35494	A/LT GEN	SUBRATA SAHA, YSM, VSM**	ASSAM	04.07.14
14	IC-35602	A/LT GEN	AB SHIVANE, VSM	ARMD	04.07.14
15	IC-35650	A/LT GEN	BC MATHEWS, AVSM, VSM	KUMAON	04.07.14
16	IC-35226	A/LT GEN	KG KRISHNA, SM, VSM	GREN	11.07.14

PK Pattnayak  
Dir MS (X)

ARMY BRANCH

No 292, dated 3rd December 2014—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against their names:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Major to be Substantive Lt Col

1.	V-552N Maj Samuel Joseph Premkumar E	RVC	11 Dec 2012
2.	V-556K Maj Mehendale Mangesh Madhusudan	RVC	11 Dec 2012
3.	V-557M Maj Nishant Rana	RVC	11 Dec 2012
4.	V-558P Maj Anup R	RVC	11 Dec 2012
5.	V-559X Maj Sanjay Jadhav	RVC	11 Dec 2012
6.	V-568Y Maj Karun Chhikara	RVC	11 Dec 2012
7.	V-569F Maj Shiba Kumar Mishra	RVC	11 Dec 2012
8.	V-571Y Maj Gagandeep Singh	RVC	11 Dec 2012

DEEPAK NARANG  
Under Secy.

No. 293, dated 4<sup>th</sup> December 2014—The President is pleased to make following promotions:—

## REGULAR ARMY

## CORPS OF ENGINEERS

## BENGAL ENGINEER GROUP

## To be Nb Sub (GD)

Hav	Shiv Charan Mandal	(1483132N	Now JC-340446W)	04102013 %
Hav	Kulwant Singh	(1483156X	Now JC-340447Y)	26102013 @
Hav	Deep Narain	(1483176L	Now JC-340448F)	14102013 @
Hav	Sasanka Nandi	(1483271X	Now JC-340449K)	15102013 @
Hav	Surjit Singh	(1483303P	Now JC-340450Y)	17102013 @
Hav	Mohan Singh	(1483333M	Now JC-340451F)	15102013 @
Hav	Rajib Kumar Singh	(1483366X	Now JC-340452K)	25102013 @
Hav	Santosh Kumar Dhal	(1483409F	Now JC-340453M)	28102013 @
Hav	Bipul Kumar Singh	(1483425Y	Now JC-340454P)	25102013 @
Hav	Rajinder Singh	(1483502H	Now JC-340455X)	24102013 @
Hav	Kamal Singh	(1483508K	Now JC-340456A)	23102013 @
Hav	Mahendra Pal Gangwar	(1483577A	Now JC-340457H)	27102013 @
Hav	Phool Singh	(1483579L	Now JC-340458L)	18102013 @
Hav	Satish Kumar	(1483613A	Now JC-340459N)	17102013 @
Hav	Santosh Kumar Thakur	(1483639P	Now JC-340460H)	15102013 @
Hav	Tapan Gogoi	(1483642P	Now JC-340461L)	24102013 @
Hav	Nawal Kumar Mandal	(1483846F	Now JC-340462N)	23102013 @
Hav	Tribhuvan Shanker	(1484083H	Now JC-340463W)	17102013 @
Hav	Sagar Kumar Dalal	(1484410H	Now JC-340464Y)	28102013 @

## To be Nb Sub Clk (SD)

Hav	Suraj Prasad Yadav	(1486217P	Now JC-340465F)	25102013 \$
Hav	Samiran Manna	(15336259M	Now JC-340466K)	14102013 #
Hav	Ajay Singh Thakurela	(15338304M	Now JC-340467M)	18102013 &

## (To be Nb Sub /Svy Cat)

Hav	Prem Singh	(1488273M	Now JC-340468P)	30102013 @
Hav	Shashi Kant Tiwari	(1488377N	Now JC-340469X)	30102013 @

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay & allces).

# (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2013 without effect on pay & allces).

& (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allces).

% (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Sep 2013 without effect on pay & allces).

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013 without effect on pay & allces).

## To be Nb Sub (GD)

Hav	Kaoshlesh Pati Tripathi	1483288L	JC-340113K	01122012\$
-----	-------------------------	----------	------------	------------

Hav	Bijendra Singh	1483293W	JC-340114M	01122012\$
Hav	Jiya Lal Pal	1483310L	JC-340115P	01122012\$
Hav	Naresh Kumar Pal	1483312W	JC-340116X	07122012\$
Hav	Arun Kumar Tripathi	1483329K	JC-340117A	05122012\$
Hav	Khorsid Alam	1483335X	JC-340118H	01122012\$
Hav	Radha Kanta Jena	1483076A	JC-340119L	01122012\$

## To be Nb Sub Clk (SD)

Hav	Ramesh Kumar Singh	15336013N	JC-340120A	01122012\$
Hav	Nisi Pratap Baudh	15336033F	JC-340121H	01122012\$
Hav	Raj Kumar	15336060L	JC-340122L	01122012\$
Hav	Gajendra Singh Sekhawat	15336068X	JC-340123N	01122012\$
Hav	Jitendra Singh	15336086A	JC-340124W	01122012\$
Hav	Pinku Kumar	15336091L	JC-340125Y	01122012\$

## ( To be Nb Sub/SKT)

Hav	Bhagwat Prasad Pandey	1486399N	JC-340126F	27112012#
Hav	Mukesh Kumar Ranjan	1486761W	JC-340127K	10122012#
Hav	Khushal Singh Bohra	1489439P	JC-340128M	01122012\$

## (To be Nb Sub/Svy Cat)

Hav	Jitender Kumar Sharma	1482770A	JC-340129P	01122012\$
Hav	Mohinder Singh	1482648K	JC-340130K	01122012\$
Hav	Sujit Manna	1482798A	JC-340131M	01122012\$
Hav	Vinod Kumar	1482574A	JC-340132P	12122012\$

# (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay &amp; allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012 without effect on pay &amp; allces).

## To be Nb Sub (GD)

Hav	Jogesh Chandra Mandal	(1482796P	Now JC-340133X)	01012013&
Hav	Sheo Govind Sahu	(1482329X	Now JC-340134A)	01012013&
Hav	Joginder Rai	(1482712W	Now JC-340135H)	01012013&
Hav	Sheesh Ram Yadav	(1483052W	Now JC-340136L)	01012013&
Hav	Vijay Shankar Pandey	(1483157A	Now JC-340137N)	01012013&
Hav	Paramjit Singh	(1483372L	Now JC-340138W)	01012013&
Hav	Sarvendra Kumar Pandey	(1483374W	Now JC-340139Y)	01012013&
Hav	Kulwant Singh	(1483378M	Now JC-340140N)	01012013&
Hav	Bablu Mondal	(1483382P	Now JC-340141W)	01012013&
Hav	Narinder Singh	(1483400M	Now JC-340142Y)	01012013&
Hav	Daya Nand	(1483407W	Now JC-340143F)	01012013&
Hav	Dhiraj Singh Negi	(1483418H	Now JC-340144K)	07012013&

## To be Nb Sub Clk (SD)

Hav	Shyاملal Jogi	(15336099X	Now JC-340145M)	01012013&
Hav	Samarjeet Singh	(15336100F	Now JC-340146P)	01012013&
Hav	Surendra Singh Rawat	(15336111N	Now JC-340147X)	01012013&
Hav	A Arul Dass	(15336116M	Now JC-340148A)	01012013&
Hav	Reji P	(15336124L	Now JC-340149H)	01012013&
Hav	Chandraveer Singh	(15336127Y	Now JC-340150X)	01012013&
Hav	Bijoy Thomas	(15336132K	Now JC-340151A)	01012013&
Hav	Manoj Kumar	(15336136A	Now JC-340152H)	01012013&
Hav	Mohan Singh Bhandari	(15336141L	Now JC-340153L)	01012013&
Hav	Yashpal	(15336156N	Now JC-340154N)	01012013&

## To be Nb Sub/Svy Cat)

Hav	Devendra Kumar Mehra	(1482907F	Now JC-340155W)	01012013&
Hav	Ranjit Singh	(1482911K	Now JC-340156Y)	01012013&
Hav	Satyendra Kumar	(1482963A	Now JC-340157F)	01012013&
Hav	Bhabha Pathak	(1483184K	Now JC-340158K)	01012013&
Hav	Kamil Hussain	(1485936F	Now JC-340159M)	01012013&

& (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013 without effect on pay & allces).

## To be Nb Sub (GD)

Hav	Kapil Sharma	(18001028F	Now JC-340161K)	22012013@
Hav	Davinder Singh	(18001066X	Now JC-340162M)	22012013@
Hav	Rakesh Raliya	(18006841N	Now JC-340163P)	16022013#
Hav	Langoljam Surjit	(15341796F	Now JC-340164X)	21022013\$
Hav	Nasib Singh	(1483454N	Now JC-340165A)	28012013*
Hav	Shokat Ali	(1483457F	Now JC-340166H)	01022013&
Hav	Rohitash Kumar	(1483485N	Now JC-340167L)	02022013&
Hav	Pushkar Singh	(1483497H	Now JC-340168N)	01022013&
Hav	Ajay Kumar Rai	(1483504N	Now JC-340169W)	07022013&
Hav	Durga Bahadur Khadka	(1483509M	Now JC-340170L)	01022013&
Hav	Premananda Roy	(1483582L	Now JC-340171N)	01022013&
Hav	Sarat Chandra Nath	(1483592P	Now JC-340172W)	01022013&
Hav	Rajendra Singh	(1483610M	Now JC-340173Y)	01022013&
Hav	Krishna Pal Singh	(1483614H	Now JC-340174F)	08022013&

Hav	Surinder Singh	(1483651W	Now JC-340175K)	01022013&
Hav	Ranjit Prasad Dubey	(1483670F	Now JC-340176M)	01022013&
To be Nb Sub Clk (SD)				
Hav	Ajarul Hasan	(15335930L	Now JC-340177P)	06112012%
Hav	Ajoy Kumar Saha	(1492765H	Now JC-340178X)	13022013+
Hav	Nagendra Singh	(15336130Y	Now JC-340179A)	15022013*
Hav	Ramesh Prasad Roy	(1485802H	Now JC-340180P)	18022013^
Hav	Vinay Kumar Singh	(15336016F	Now JC-340181X)	14022013&
Hav	Vijay Singh Yadav	(15336041A	Now JC-340182A)	15022013&
Hav	Jagvir Singh	(15336161Y	Now JC-340183H)	13022013&
Hav	Ishwar Singh	(15336165P	Now JC-340184L)	15022013&
Hav	Jamin Chandra Roy	(15336169L	Now JC-340185N)	18022013&
(To be Nb Sub/SKT)				
Hav	Sambhu Hore	(1489628Y	Now JC-340186W)	01022013&
(To be Nb Sub/Svy Cat)				
Hav	Rakesh Kumar Srivastava	(1482929A	Now JC-340187Y)	01022013&
Hav	Rajesh Kumar Rana	(1482489X	Now JC-340188F)	01022013&
Hav	Radhey Shyam	(1483719M	Now JC-340189K)	01022013&
Hav	Milan Kumar Bera	(1488009Y	Now JC-340190Y)	14022013&
Hav	Jitendra Singh	(1488033P	Now JC-340191F)	15022013&
Hav	PM Nirmal Kumar	(1488048X	Now JC-340192K)	02022013&

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Oct 2011 without effect on pay & allces).

# (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Oct 2011 without effect on pay & allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Jun 2012 without effect on pay & allces).

% (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay & allces).

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 2012 without effect on pay & allces).

\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013 without effect on pay & allces).

^(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Jan 2013 without effect on pay & allces).

& (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013 without effect on pay & allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav	Yogendra Kumar	(1497305L	Now JC-340194P)	06032013@
Hav	Lalit Kumar	(1483470L	Now JC-340195X)	01022013#
Hav	Inder Bir Singh Chauhan	(1483487Y	Now JC-340196A)	01022013#
Hav	Pabitra Hati Baruah	(1483688X	Now JC-340197H)	01022013#
Hav	Pawanveer Singh	(1483698F	Now JC-340198L)	01032013\$
Hav	Daljit Singh	(1483735K	Now JC-340199N)	01032013\$
Hav	Mahesh Chandra Joshi	(1483752K	Now JC-340200X)	02032013\$

Hav	Gulsan Ali	(15335392H	Now JC-340201A)	01032013\$
Hav	Jashbeer	(15339687W	Now JC-340202H)	01042013\$
Hav	Balhar Singh	(1482219H	Now JC-340203L)	01032013\$
Hav	Amarjit Singh	(1483238A	Now JC-340204N)	01032013\$
Hav	Munna Lal Singh	(1483278F	Now JC-340205W)	02032013\$
Hav	Swapan Kumar De	(1483793N	Now JC-340206Y)	21032013\$
Hav	Arvind Kumar Tiwari	(1483804P	Now JC-340207F)	01032013\$
Hav	Biswanath Das	(1483830W	Now JC-340208K)	01032013\$
Hav	Mahendra Chandra Nath	(1483844W	Now JC-340209M)	01032013\$
Hav	Amarjit Singh	(1483858W	Now JC-340210F)	01032013\$

## To be Nb Sub Clk (SD)

Hav	Amit Kumar	(15336158Y	Now JC-340211K)	18032013#
Hav	Karamveer	(15336177K	Now JC-340212M)	01032013\$
Hav	Amit Kumar Sharma	(15336179P	Now JC-340213P)	01032013\$
Hav	Gajendra Singh	(15336185H	Now JC-340214X)	01032013\$
Hav	Amandeep Singh	(15336188W	Now JC-340215A)	01032013\$
Hav	Ganesh Kumar Choudhary	(15336189Y	Now JC-340216H)	01032013\$
Hav	Bipin Kumar Pandey	(15336193F	Now JC-340217L)	01032013\$

## To be Nb Sub/Svy Cat)

Hav	Subrata Kumar Metya	(1488028K	Now JC-340218N)	25022013#
Hav	Santosh Singh Tomar	(1488091Y	Now JC-340219W)	01032013\$
Hav	Kapil Dev Bisht	(1488172Y	Now JC-340220L)	01032013\$
Hav	Vimal Chander	(1488174K	Now JC-340221N)	01032013\$
Hav	Harish Chandra	(1488197L	Now JC-340222W)	01032013\$
Hav	Niranjan Singh	(1488236Y	Now JC-340223Y)	01032013\$

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2012 without effect on pay & allces).

# (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013 without effect on pay & allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013 without effect on pay & allces).

## To be Nb Sub (GD)

Hav	Joginder Singh	(1483430K	Now JC-340224F)	01032013#
Hav	Ramesh Kumar	(1483785P	Now JC-340225K)	19042013#
Hav	Chandra Bhushan Kumar	(1483937L	Now JC-340226M)	01042013\$
Hav	Awadesh Kumar Tripathi	(1483945K	Now JC-340227P)	12042013\$
Hav	Biswanath Debnath	(1483958F	Now JC-340228X)	01042013\$
Hav	Ashok Kumar	(1483993K	Now JC-340229A)	01042013\$
Hav	Sakti Chaudhari	(1483998H	Now JC-340230P)	01042013\$
Hav	Vinod Kumar Singh	(1484015P	Now JC-340231X)	03042013\$

Hav	Sunil Kumar Singh	(1484048A	Now JC-340232A)	01042013\$
Hav	Ranbir Singh	(1484060F	Now JC-340233H)	01042013\$
Hav	Bahadur Ram	(1484089K	Now JC-340234L)	01042013\$
Hav	Sajal Kumar Basu	(1484093M	Now JC-340235N)	01042013\$
Hav	Susanta Patra	(1484101A	Now JC-340236W)	01042013\$
Hav	Satpal Singh	(1484111K	Now JC-340237Y)	01042013\$
Hav	Gurmeet Singh	(1484113P	Now JC-340238F)	01042013\$
Hav	Lal Babu Sharma	(1484124F	Now JC-340239K)	01042013\$
Hav	Krishan Kumar	(1484179L	Now JC-340240Y)	01042013\$
Hav	Mohan Singh	(1484197N	Now JC-340241F)	12042013\$
Hav	Amarjit Singh	(1484200H	Now JC-340242K)	01042013\$
Hav	Harjinder Singh	(1484230A	Now JC-340243M)	08042013\$
Hav	Raj Kishor Singh	(1484233N	Now JC-340244P)	02042013\$
Hav	Hardial Singh	(1484241M	Now JC-340245X)	01042013\$
Hav	Swapan Kumar Santra	(1484272M	Now JC-340246A)	01042013\$
Hav	Sachin Singh	(15335623N	Now JC-340247H)	01042013\$
Hav	Kuldeep Singh	(1483773A	Now JC-340248L)	01042013\$
Hav	Laxman Singh	(1484041W	Now JC-340249N)	01042013\$
Hav	Ram Singh	(1484287P	Now JC-340250H)	03042013\$
Hav	Bhajan Singh	(1484290P	Now JC-340251L)	01042013\$
Hav	Mohan Singh Jarmal	(1484309H	Now JC-340252N)	08042013\$
Hav	Ramesh Singh Bora	(1484313L	Now JC-340253W)	02042013\$
Hav	Jagjeewan Singh	(1484319M	Now JC-340254Y)	01042013\$
Hav	Mangla Prasad Pandey	(1484327L	Now JC-340255F)	01042013\$
Hav	Shimbhu Singh	(1484360H	Now JC-340256K)	01042013\$

## To be Nb Sub Clk (SD)

Hav	Bimal Chandra	(15336012L	Now JC-340257M)	01042013\$
Hav	Raj Kishore	(15336194K	Now JC-340258P)	01042013\$
Hav	Awdesh Kumar Kushwaha	(15336199H	Now JC-340259X)	01042013\$
Hav	A Lakshmanan	(15336201P	Now JC-340260M)	01042013\$
Hav	Shewale Arun Maruti	(6390310N	Now JC-340261P)	01042013\$
Hav	Arvind Singh Yadav	(15336205L	Now JC-340262X)	01042013\$
Hav	Prakash Kumar Mishra	(15336207W	Now JC-340263A)	01042013\$
Hav	Atma Prasad Maurya	(15336218H	Now JC-340264H)	01042013\$
Hav	Gnana Sekaran K	(15336219L	Now JC-340265L)	01042013\$
Hav	Jiten Samal	(15336220A	Now JC-340266N)	01042013\$



Hav	Raj Singh	(15336222L	Now JC-340267W)	01042013\$
		(To be Nb Sub /SKT)		
Hav	Vikas Singh	(1489902L	Now JC-340268Y)	01042013\$
Hav	Deep Kumar Pandey	(1489949W	Now JC-340269F)	01042013\$
Hav	Mahesh Kumar Sharma	(1489954F	Now JC-340270W)	02042013\$
Hav	Yogendra Chandra Joshi	(1485905F	Now JC-340271Y)	01042013\$
		(To be Nb Sub/Svy Cat)		
Hav	Rajender Mohan Puri	(1482343K	Now JC-340272F)	09042013@
Hav	Raj Karan Singh	(1488025W	Now JC-340273K)	18042013@
Hav	Subhash Chandra	(1488262A	Now JC-340274M)	01042013\$
Hav	Dunni Chand	(15348126H	Now JC-340275P)	01042013\$

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Feb 2013 without effect on pay & allces).

# (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013 without effect on pay & allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2013 without effect on pay & allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav	Dharmendra Singh	(15345712A	Now JC-340434F)	13092013 \$
Hav	Virender Singh Rawat	(1482447L	Now JC-340435K)	02092013@
Hav	Avtar Singh	(1482462A	Now JC-340436M)	12092013@
Hav	Dadan Singh	(1482515N	Now JC-340437P)	04092013@
Hav	Umesh Kumar	(1482525X	Now JC-340438X)	05092013@
Hav	Iqbal Singh	(1482849H	Now JC-340439A)	01092013@
Hav	Mohan Singh Bhandari	(1483474F	Now JC-340440P)	14102013#

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav	SG Narayanan	(1486325Y	Now JC-340441X)	14102013%
Hav	Dharmendra Singh	(15337634Y	Now JC-340442A)	24082013\$
Hav	Manoj Kumar	(15338286P	Now JC-340443H)	01092013@
Hav	Vinod B	(15338399X	Now JC-340444L)	02092013@
Hav	Rajeev Singh	(15338223M	Now JC-340445N)	07092013&

% (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay & allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2013 without effect on pay & allces).

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allces).

& (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Sep 2013 without effect on pay & allces).

# (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013 without effect on pay & allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav	Bipin Kumar Singh	(1483432P	Now JC-340391X)	02092013@
Hav	Sudheer N	(15344094N	Now JC-340392A)	10092013#
Hav	Manoj Kumar Singh	(1483340H	Now JC-340393H)	26082013\$
Hav	Bhupendra Kumar	(1482436Y	Now JC-340394L)	02092013&

Hav	Satvir Singh	(1482459A	Now JC-340395N)	02092013&
Hav	Badrish Prasad	(1482475X	Now JC-340396W)	02092013&
Hav	Ranbir Singh	(1482493A	Now JC-340397Y)	02092013&
Hav	Arvind Singh	(1482539X	Now JC-340398F)	02092013&
Hav	Bibhuti Bhusana Mohapatra	(1482546N	Now JC-340399K)	01092013&
Hav	Pradeep Kumar Negi	(1482617K	Now JC-340400N)	01092013&
Hav	Ravinder Singh	(1482647F	Now JC-340401W)	03092013&
Hav	Parvesh Kumar	(1482658N	Now JC-340402Y)	01092013&
Hav	Anup Kumar Khan	(1482679K	Now JC-340403F)	01092013&
Hav	Meharwan Singh	(1482738L	Now JC-340404K)	01092013&
Hav	Sanjeet Singh	(1482747M	Now JC-340405M)	02092013&
Hav	Brahma Chattopadhyay	(1482769L	Now JC-340406P)	01092013&
Hav	Sarkale Prakash Eknath	(1482787N	Now JC-340407X)	02092013&
Hav	Ashok Garai	(1482801P	Now JC-340408A)	02092013&
Hav	Rakesh Singh	(1482880P	Now JC-340409H)	01092013&
Hav	Pushkar Singh	(1482906Y	Now JC-340410X)	02092013&
Hav	Sanjay Kumar Panday	(1482946A	Now JC-340411A)	02092013&
Hav	Rajeev Kumar Trivedi	(1482948L	Now JC-340412H)	01092013&
Hav	Dinesh Kumar Verma	(1482965L	Now JC-340413L)	02092013&
Hav	Sadanand Paswan	(1482998W	Now JC-340414N)	01092013&
Hav	Rajbinder Singh Puni	(1483078L	Now JC-340415W)	01092013&
Hav	Naurang Singh	(1483102W	Now JC-340416Y)	01092013&
To be Nb Sub Clk (SD)				
Hav	Md Shamsher	(15336113Y	Now JC-340417F)	22082013#
Hav	Harender Pal	(15338257A	Now JC-340418K)	02092013&
Hav	Mukesh Kumar	(15338323X	Now JC-340419M)	02092013&
Hav	Vijaya Pal Singh Punia	(15338334K	Now JC-340420F)	02092013&
Hav	Dipandu Pathak	(15338410L	Now JC-340421K)	02092013&
Hav	Sunny T	(15338412W	Now JC-340422M)	02092013&
Hav	Bablu Kumar Maiti	(15338448P	Now JC-340423P)	01092013&
Hav	Shyama Prasad Sarkar	(15338457W	Now JC-340424X)	02092013&
Hav	Prokash Roy	(15338489Y	Now JC-340425A)	02092013&
Hav	Raj Kumar Banerjee	(15338490N	Now JC-340426H)	02092013&
Hav	Ram Prakash Singh	(15338277N	Now JC-340427L)	02092013&
Hav	Md Matiur Rohman	(15338494K	Now JC-340428N)	02092013&
Hav	Tanmoy Biswas	(15338530K	Now JC-340429W)	02092013&

Hav	Biswajit Adak	(1533853IM	Now JC-340430L)	01092013&
		(To be Nb Sub /SKT)		
Hav	Raghvendra Singh	(1490233K	Now JC-340431N)	02092013&
		[To be Nb Sub /Clk (IM)]		
Hav	Nikam Gorakhnath Uttam	(1485238Y	Now JC-340432W)	24082013#
		(To be Nb Sub /Svy Cat)		
Hav	Achyuta Nanda Das	(1488036H	Now JC-340433Y)	01092013&
		@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013 without effect on pay & allces).		
		# (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Jun 2013 without effect on pay & allces).		
		\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Aug 2013 without effect on pay & allces).		
		& (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allces).		
		To be Nb Sub (GD)		
Hav	Rajiv Kumar	(15337400P	Now JC-340367F)	22082013@
Hav	Digar Singh Thapa	(1484464K	Now JC-340368K)	29072013@
Hav	Amandeep Singh	(15341134Y	Now JC-340369M)	03082013@
Hav	Sanjay Kumar Singh	(1484009F	Now JC-340370F)	01072013#
Hav	Jai Ram Singh	(1482093N	Now JC-340371K)	01072013#
		[To be Nb Sub/Clk (SD)]		
Hav	Siva Prasad B	(1486186A	Now JC-340372M)	21082013&
Hav	Kadam Sanjay Dhansing	(15335882W	Now JC-340373P)	29082013&
Hav	Rajesh Kumar Wariyal	(15336133M	Now JC-340374X)	22082013&
Hav	Sonu Kumar	(15336182P	Now JC-340375A)	21082013&
Hav	Ajay Kumar	(15336275K	Now JC-340376H)	23082013&
Hav	Sumit Kumar	(15338156M	Now JC-340377L)	01082013\$
Hav	Rakesh	(15338171F	Now JC-340378N)	01082013\$
Hav	Parveen Kumar	(15338178L	Now JC-340379W)	01082013\$
Hav	Atul Vohra	(15338191P	Now JC-340380L)	01082013\$
Hav	Devender Singh Shekhawat	(15338202W	Now JC-340381N)	01082013\$
Hav	Jitendra Dhyani	(15338247W	Now JC-340382W)	01082013\$
Hav	Rajendra Joshi	(15338252F	Now JC-340383Y)	01082013\$
		(To be Nb Sub /SKT)		
Hav	Kadam Niwas Narayan	(1490074X	Now JC-340384F)	01082013\$
Hav	Om Prakash Singh	(1485888M	Now JC-340385K)	01082013\$
Hav	Shyam Kumar Sinha	(1486552Y	Now JC-340386M)	01082013\$
Hav	Md Abul Kashem	(1485769W	Now JC-340387P)	01082013\$
		(To be Nb Sub/Svy Cat)		
Hav	Harsh Bardhan Singh	(1488972X	Now JC-340388X)	01082013\$

Hav	Vijay Singh Rawat	(15348127L	Now JC-340389A)	01082013\$
Hav	Surya Prakash Semwal	(15348128N	Now JC-340390P)	01082013\$

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2013 without effect on pay & allces).

& (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Jun 2013 without effect on pay & allces).

# (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2013 without effect on pay & allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2013 without effect on pay & allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav	Amit Pramanik	(15341592P	Now JC-340341M)	30072013@
Hav	Dalbir Singh	(15343536P	Now JC-340342P)	30072013@
Hav	Lalit Kumar	(15344394P	Now JC-340343X)	30072013@
Hav	Pawan Kumar	(1483834M	Now JC-340344A)	01062013@
Hav	Devanand	(1481623L	Now JC-340345H)	01072013\$
Hav	Manmohan Singh	(1481626Y	Now JC-340346L)	01072013\$
Hav	Rajesh	(1481902W	Now JC-340347N)	03072013\$
Hav	Suresh Kumar Sahu	(1481933W	Now JC-340348W)	02072013\$
Hav	Vinod Kumar Chauhan	(1481938P	Now JC-340349Y)	01072013\$
Hav	Dal Bahadur Thapa	(1481946N	Now JC-340350N)	01072013\$
Hav	Jai Prakash Singh	(1481974A	Now JC-340351W)	01072013\$
Hav	Gurdip Singh	(1481989H	Now JC-340352Y)	01072013\$
Hav	Vinod Kumar	(1482152P	Now JC-340353F)	01072013\$
Hav	Hardit Singh	(1482272N	Now JC-340354K)	02072013\$
Hav	Prakash Kumar	(1482280M	Now JC-340355M)	01072013\$
Hav	Anuj Kumar	(1482281P	Now JC-340356P)	01072013\$
Hav	Sarvesh Kumar Pal	(1482146F	Now JC-340357X)	01072013\$
Hav	Ugra Sen Singh	(1482434N	Now JC-340358A)	01072013\$

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav	Santosh Kumar	(15337620Y	Now JC-340359H)	01072013\$
Hav	Miritunjay Kumar Sharma	(15337623M	Now JC-340360X)	16072013\$
Hav	Kabindra Kumar Singh	(15337653K	Now JC-340361A)	04072013\$
Hav	Yadav Rakesh Kumar Harinath	(15337679Y	Now JC-340362H)	01072013\$
Hav	Dhakre Ravindra Singh	(15337681W	Now JC-340363L)	01072013\$
Hav	Roshan Kumar Rawat	(15338153Y	Now JC-340364N)	02072013\$
Hav	Darvinder Kumar	(15338154F	Now JC-340365W)	01072013\$

(To be Nb Sub /SKT)

Hav	Kalu Singh	(1490068K	Now JC-340366Y)	06072013\$
-----	------------	-----------	-----------------	------------

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2013 without effect on pay & allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2013 without effect on pay & allces).

To be Nb Sub (GD)				
Hav	Ravi Das	(1484038W	Now JC-340311P)	01042013@
Hav	Vijai Kumar Pandey	(1484508W	Now JC-340312X)	01062013\$
Hav	Ashok Kumar	(1484532M	Now JC-340313A)	01062013\$
Hav	Mangal Singh	(1484590W	Now JC-340314H)	01062013\$
Hav	Yashwant Singh	(1484607Y	Now JC-340315L)	01062013\$
Hav	Ranjeet Singh Rathour	(1484608F	Now JC-340316N)	03062013\$
Hav	Suresh Singh	(1484640W	Now JC-340317W)	01062013\$
Hav	Ganga Singh	(1484645P	Now JC-340318Y)	01062013\$
Hav	Sanjiw Kumar	(1484646X	Now JC-340319F)	01062013\$
Hav	Vinod Kumar Singh	(1484653N	Now JC-340320W)	01062013\$
Hav	Anil Kumar Singh	(1481624N	Now JC-340321Y)	01062013\$
Hav	Ashok Kumar Singh	(1483932M	Now JC-340322F)	03062013\$
Hav	Ajay Kumar	(1494504N	Now JC-340323K)	01062013\$
Hav	Shyam Lal	(15341507F	Now JC-340324M)	03062013\$
Hav	Asgar Hassan	(15338761A	Now JC-340325P)	01062013\$
Hav	Angad Kumar Prasad	(15338062P	Now JC-340326X)	01062013\$
Hav	Mukesh Kumar Singh	(15337716F	Now JC-340327A)	01062013\$
Hav	Amit Kumar Singh	(15339656W	Now JC-340328H)	01062013\$
Hav	Bhupinder Singh	(15341170K	Now JC-340329L)	01062013\$
Hav	Jaswinder Singh Dhanoa	(15341585Y	Now JC-340330A)	01062013\$
Hav	Sher Singh	(1481531Y	Now JC-340331H)	01062013\$
Hav	Uma Shankar Saroj	(1483913F	Now JC-340332L)	01062013\$
To be Nb Sub Clk (SD)				
Hav	Gurupada Bouri	(15336301A	Now JC-340333N)	01062013\$
Hav	Rajbir Singh Tomar	(15337435L	Now JC-340334W)	01062013\$
Hav	R Praveen Nair	(15337571F	Now JC-340335Y)	01062013\$
Hav	Mukesh Kumar	(15337618F	Now JC-340336F)	01062013\$
(To be Nb Sub /SKT)				
Hav	Nitesh Kumar Sharma	(1490065W	Now JC-340337K)	01062013\$
(To be Nb Sub/Svy Cat)				
Hav	Harish Chandra Joshi	(1488246H	Now JC-340338M)	03062013\$
Hav	Rakesh Shah	(1488265N	Now JC-340339P)	01062013\$

Hav	Md Mannan Ali Khan	(1488368M	Now JC-340340K)	25062013\$
@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2013 without effect on pay & allces).				
\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2013 without effect on pay & allces).				
To be Nb Sub (GD)				
Hav	Shiva Sevak Kanaujia	(1483575P	Now JC-340276X)	08052013@
Hav	Atul Kumar Singh	(1483843N	Now JC-340277A)	01032013#
Hav	Ramjee Prasad Singh	(1484363W	Now JC-340278H)	01052013\$
Hav	Dip Narayan Ray Choudhury	(1484373A	Now JC-340279L)	01052013\$
Hav	Tajbar Singh	(1484468A	Now JC-340280A)	03052013\$
Hav	Umesh Chandra Phulera	(1484469H	Now JC-340281H)	01052013\$
Hav	Bahadur Singh	(1484478K	Now JC-340282L)	01052013\$
Hav	Jeewan Kumar	(1484497P	Now JC-340283N)	01052013\$
To be Nb Sub Clk (SD)				
Hav	Shaikh Sinu Ahmed Minu Ahmed	(1486176W	Now JC-340284W)	20052013%
Hav	S Kumar	(6390459P	Now JC-340285Y)	14052013%
Hav	Vijai Shanker	(15336085X	Now JC-340286F)	13052013%
Hav	Ajay Pratap Singh	(15336087H	Now JC-340287K)	18052013%
Hav	Abhinav Kumar	(15336174W	Now JC-340288M)	16052013%
Hav	Kapil Kumar Malik	(15336183X	Now JC-340289P)	13052013%
Hav	Kuldip Singh	(15336190N	Now JC-340290K)	27052013%
Hav	Anustup Sarkar	(15336202X	Now JC-340291M)	14052013^
Hav	Mandeep Singh	(15336242Y	Now JC-340292P)	01052013\$
Hav	Rajendra Kumar Sahani	(15336200M	Now JC-340293X)	01052013\$
Hav	Gawas Narayan Pandurang	(15336252H	Now JC-340294A)	01052013\$
Hav	Sudesh Kumar Singh	(15336255W	Now JC-340295H)	14052013\$
Hav	Manash Banerjee	(15336278X	Now JC-340296L)	01052013\$
Hav	Pradeep Kumar	(15336288F	Now JC-340297N)	02052013\$
Hav	Sura Bhaskara Rao	(15336292K	Now JC-340298W)	01052013\$
To be Nb Sub Clk (IM)				
Hav	Shanker Singh	(1485055H	Now JC-340299Y)	20052013%
(To be Nb Sub /SKT)				
Hav	Tarun Kumar Sharma	(1489746M	Now JC-340300H)	01052013\$
Hav	Manku Subbaiah	(1489995L	Now JC-340301L)	01052013\$
(To be Nb Sub/Svy Cat)				
Hav	Balwant Singh Banaula	(1488357A	Now JC-340302N)	01052013\$

Hav	Brijesh Sharma	(1488762X	Now JC-340303W)	01052013\$
Hav	Kajal Khatri	(1488811P	Now JC-340304Y)	01052013\$
Hav	Ramesh Singh Bisht	(1488814H	Now JC-340305F)	01052013\$
Hav	Pawan Singh	(1488828H	Now JC-340306K)	01052013\$

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Feb 2013 without effect on pay & allces).

# (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013 without effect on pay & allces).

% (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Mar 2013 without effect on pay & allces).

^ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2013 without effect on pay & allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2013 without effect on pay & allces).

To be Nb Sub (RT)

SEP	Manga Singh	(2496247W	Now JC-339512F)	07052011#
SEP	Hare Krishna Mishra	(14662349N	Now JC-339513K)	07052011#
L NK	Chouth Mal Sharma	(15684620H	Now JC-339770F)	04022012\$
RRT	Udhaw Anup	(339647H	Now JC-339647H)	04022012\$
RRT	Praveen Sitaram Gaude	(339646A	Now JC-339646A)	04022012\$
L NK	Pravesh Kumar Dixit	(15772696L	Now JC-339988N)	30062012@
GNR	Harish Chandra Mishra	(15202459M	Now JC-339989W)	30062012@
L NK	Mandeep Singh	(15349467A	Now JC-339990L)	30062012@

# (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 May 2011 without effect on pay & allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Feb 2012 without effect on pay & allces).

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Jun 2012 without effect on pay & allces).

MAN MOHAN  
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 294, dated 4th December 2014—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

TO BE NAIB RISALDAR

Promotion of the following NCOs to Naib Risaldar :-

1.	CHANDAN KUMAR DFR (DSR)	NO 7240055X NOW JC-797604M	01 Oct 2011
2.	RAVINDRA KUMAR SINGH DFR (DSR)	NO 7240065F NOW JC-797605P	01 Nov 2011
3.	JITENDRA KUMAR SINGH DFR (ADT)	NO 7239914L NOW JC-79760 6X	01 Dec 2011
4.	ASHOK KUMAR RDM (FARR)	NO 7239732X NOW JC-797607A	01 Dec 2011

5.	HARI KERSAN DFR (LA)	NO 7240067M NOW JC-797608H	01 Jan 2012
6.	MAMTESH GARG DFR (DSR)	NO 7240072X NOW JC-797609L	01 Jan 2012
7.	SHIVAJI POONIA DFR (RDR)	NO 7241029H NOW JC-797610A	01 Jan 2012
8.	TAPAS KUMAR DAS DFR (DSR)	NO 7240111L NOW JC-797611H	01 Mar 2012
9.	MOMIN RDM (FARR)	NO 7239900L NOW JC-797612L	01 Mar 2012
10.	ASHWANI KUMAR SHARMA DFR (CLK)	NO 7240309K NOW JC-797613N	01 Apr 2012
11.	GOVIND SINGH ADHIKARI DFR (CLK)	NO 7240349L NOW JC-797614W	01 Apr 2012
12.	MD. REKIBUDDIN AHMED DFR (CLK)	NO 7240370N NOW JC-797615Y	01 Apr 2012
13.	HRUSIKESHA BISHOYI DFR (CLK)	NO 7240460P NOW JC-797616F	01 Apr 2012
14.	RAM ROOP JATAV DFR (CLK)	NO 7240463H NOW JC-797617K	01 Apr 2012
15.	UMESH KUMAR SHARMA DFR (DSR)	NO 7240142L NOW JC-797618M	01 Apr 2012
16.	UGHADE MILIND PUNDLIK RAO DFR (LA)	NO 7240268L NOW JC-797619P	01 Apr 2012
17.	MAHENDRA PAL DFR (DSR)	NO 7240204A NOW JC-797620K	01 Apr 2012
18.	RVIND SINGH DFR (DSR)	NO 7240161W NOW JC-797621M	01 Apr 2012
19.	GANPAT RAM BISHNOI DFR (DSR)	NO 7240225W NOW JC-797622P	01 Apr 2012
20.	BACHCHE LAL YADAV DFR (DSR)	NO 7240241N NOW JC-797623X	01 Apr 2012
21.	JALE SINGH DFR (DSR)	NO 7240318L NOW JC-797624A	01 Apr 2012
22.	GANESH RAO K RDM (FARR)	NO 7239910P NOW JC-797625H	01 Apr 2012
23.	VELU G RDM (FARR)	NO 7239974A NOW JC-797626L	01 Apr 2012
24.	SANDANALA KRISHNAIAH DFR (CLK)	NO 7240285L NOW JC-797627N	01 May 2012
25.	SATHEESH KUMAR G DFR (CLK)	NO 7240456M NOW JC-797628W	01 May 2012
26.	SATISH KUMAR FR (LA)	NO 7240382H NOW JC-797629Y	01 May 2012



27.	BACHAN LAL DFR (LA)	NO 7240392M NOW JC-797630N	01 May 2012
28.	PRASAD PP DFR (LA)	NO 7240060H NOW JC-797631W	01 May 2012
29.	SUKHDEV GHOSH, SM* DFR (ADT)	NO 7239922K NOW JC-797632Y	01 May 2012
30.	VIJENDRA KUMAR DFR (ADT)	NO 7240172H NOW JC-797633F	01 May 2012
31.	RAMESH CHANDRA RDM (FARR)	NO 7239978W NOW JC-797634K	01 May 2012
32.	LONDHE BABASAHEB BANABRAO DFR (CLK)	NO 7240680Y NOW JC-797635M	01 Jun 2012
33.	GOPAL SINGH DFR (CLK)	NO 7240685X NOW JC-797636P	01 Jun 2012
34.	RAM SWAROOP DFR (DSR)	NO 7240368W NOW JC-797637X	01 Jun 2012
35.	UDAI BHAN YADAV DFR (RDR)	NO 7240136X NOW JC-797638A	01 May 2012
36.	BALDEV RAJ DFR (RDR)	NO 7240332X NOW JC-797639H	01 Jun 2012
37.	SATYA NARAYAN KUMAR DFR (DSR)	NO 7240404W NOW JC-797640X	01 Jun 2012
38.	RAM KRISHAN CHAURASIYA DFR (DSR)	NO 7240397L NOW JC-797641A	01 Jun 2012
39.	DHANANJAY SINGH DFR (LA)	NO 7240457P NOW JC-797642H	01 Jun 2012
40.	MALKIT SINGH DFR (DSR)	NO 7240461X NOW JC-797643L	01 Jun 2012
41.	SURINDER KUMAR DFR (RDR)	NO 7240388K NOW JC-797644N	01 Jul 2012
42.	HARJEE LAL GURJAR DFR (RDR)	NO 7240447L NOW JC-797645W	01 Jul 2012
43.	RAMAYODHYA SINGH DFR (DSR)	NO 7240398N NOW JC-797646Y	01 Jul 2012
44.	L DILIP KUMAR REDDY DFR (CLK)	NO 7240682K NOW JC-797647F	01 Aug 2012
45.	VINOD KUMAR DFR (DSR)	NO 7240434N NOW JC-797648K	01 Aug 2012
46.	SULTAN SINGH RANGA DFR (ADT)	NO 7240192W NOW JC-797649M	01 Aug 2012
47.	JAGVIR SINGH DFR (RDR)	NO 7240450L NOW JC-797650F	01 Aug 2012
48.	VIJAY PRAKASH SHARMA DFR (FARR)	NO 7240228K NOW JC-797651K	01 Aug 2012

49.	REYYI SIVAJI DFR (CLK)	NO 7240754H NOW JC-797652M	01 Sep 2012
50.	SAMIR KUMAR KARMAKAR DFR (DSR)	NO 7240550W NOW JC-797653P	01 Sep 2012
51.	PRAVINDRA KUMAR DFR (DSR)	NO 7240547W NOW JC-797654X	01 Sep 2012
52.	VIRENDER KUMAR DFR (DSR)	NO 7240557A NOW JC-797655A	01 Sep 2012
53.	SANJAY KUMAR DUBEY DFR (RDR)	NO 7240 454F NOW JC-797656H	01 Sep 2012
54.	RAJAN KUMAR DFR (RDR)	NO 7240459A NOW JC-797657L	01 Sep 2012
55.	JAI SINGH DFR (RDR)	NO 7240507P NOW JC-797658N	01 Sep 2012
56.	MANOJ ARYA DFR (CLK)	NO 5752653X NOW JC-797659W	01 Oct 2012
57.	OMBIR SINGH DFR (RDR)	NO 7240558H NOW JC-797660L	01 Oct 2012
58.	ARANDESH KUMAR DFR (RDR)	NO 7240602F NOW JC-797661N	01 Oct 2012
59.	GUMANA RAM RAIKA DFR (DSR)	NO 7240563N NOW JC-797662W	01 Oct 2012
60.	SHYAMAL CHANDRA DAS DFR (DSR)	NO 7240568M NOW JC-797663Y	01 Nov 2012
61.	AJIT KUMAR JHA DFR (ADT)	NO 7240234X NOW JC-797664F	01 Nov 2012
62.	NARENDRA KUMAR SINGH DFR (DSR)	NO 7240555P NOW JC-797665K	01 Nov 2012
63.	ARVIND KUMAR SINGH DFR (CLK)	NO 7240700F NOW JC-797666M	01 Nov 2012
64.	PRADEEP THOMAS DFR (CLK)	NO 7240707L NOW JC-797667P	01 Nov 2012
65.	MANPAL SINGH NEGI DFR (LA)	NO 7240570K NOW JC-797668X	01 Dec 2012
66.	SHAIENDRA KUMAR MISHRA DFR (CLK)	NO 7240782P NOW JC-797669A	01 Dec 2012
67.	SUNIL DATT DFR (RDR)	NO 7240582F NOW JC-797670P	01 Dec 2012
68.	RAKESH KUMAR TIWARI DFR (ADT)	NO 7240446H NOW JC-797671X	01 Dec 2012
69.	RAM KUMAR DFR (LA)	No 7240572P NOW JC-797672A	01 Jan 2013
70.	NARENDRA KUMAR CHAUBEY DFR (DSR)	No 7240583F NOW JC-797673H	01 Jan 2013

71.	WAGH DEVIDAS SHANKAR RAO DFR (RDR)	No 7240610A NOW JC-797674L	01 Jan 2013
72.	ALBERT SELVAN S RDM (FARR)	No 7240343K NOW JC-797675N	01 Jan 2013
73.	DARBARI LAL DFR (RDR)	No 7240616F NOW JC-797676W	01 Feb 2013
74.	PANDURI PAIDI NAIDU DFR (DSR)	No 7240587X NOW JC-797677Y	01 Feb 2013
75.	JAYARAJAN E DFR (CLK)	No 7240755L NOW JC-797678F	01 Mar 2013
76.	SUBODH BHASKAR NEGI DFR (LA)	No 7240451N NOW JC-797679K	01 Mar 2013
77.	KASHI NATH YADAV DFR (DSR)	No 7240589H NOW JC-797680Y	01 Mar 2013
78.	BRAJ NANDAN BHARDWAJ DFR (CLK)	No 7240772L NOW JC-797681F	01 Apr 2013
79.	JASWINDER PAL DFR (LA)	No 7240593L NOW JC-797682K	01 Apr 2013
80.	RAM GOPAL DFR (FARR)	No 7240358M NOW JC-797683M	01 Apr 2013

DEEPAK NARANG  
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 295, Date 5th December 2014—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

The Mechanised Infantry Regiment

To be Substantive Subedar Major (GD)

SUB KISHORI PRASAD (JC-421080K) 01<sup>st</sup> Sep 2014

SUB JAI SINGH (JC-421085H) 04<sup>th</sup> Sep 2014\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01<sup>st</sup> Sep 2014 without effect on pay and allowances)

SUB ELDHO Y (JC-421334W) 01<sup>st</sup> Sep 2014

SUB VINOD KUMAR (JC-4210086L) 01<sup>st</sup> Oct 2014

To be Substantive Subedar (GD)

NB SUB PIRYA RANJAN KUMAR (JC-421580F) 15<sup>th</sup> Sep 2014\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01<sup>st</sup> Jun 2014 without effect on pay and allowances)

NB SUB TAPAS KUMAR MALKAR (JC-421690W) 04<sup>th</sup> Aug 2014\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01<sup>st</sup> Jun 2014 without effect on pay and allowances)

NB SUB BAL KRISHNA (JC-421593Y) 17<sup>th</sup> Sep 2014\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01<sup>st</sup> Jul 2014 without effect on pay and allowances)

NB SUB BHUWA PRASAD GURUNG (JC-421844X) 22<sup>nd</sup> Jul 2014\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01<sup>st</sup> Jul 2014 without effect on pay and allowances)

NB SUB JEEVAN SINGH (JC-422174N) 06<sup>th</sup> Aug 2014\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01<sup>st</sup> Jul 2014 without effect on pay and allowances)

NB SUB ARJUN DESAI	(JC-422201M)	17 <sup>th</sup> Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 <sup>st</sup> Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB MURUGAN K	(JC-422240L)	01 <sup>st</sup> Jul 2014
NB SUB MD ALI HOSSAIN	(JC-422241N)	01 <sup>st</sup> Aug 2014
NB SUB MANTOSH ROY KAYET	(JC-421753N)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
NB SUB BABBAN YADAVA	(JC-421758M)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
NB SUB UMESH CHANDRA SINGH	(JC-421761M)	25 <sup>th</sup> Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 <sup>st</sup> Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB SHIV KARAN SINGH	(JC-421762P)	08 <sup>th</sup> Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 <sup>st</sup> Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB SAUMEN RAY	(JC-421823F)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
NB SUB BACHCHA PRASAD SINGH	(JC-421824K)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
NB SUB ROY MATHEW	(JC-421784N)	02 <sup>nd</sup> Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 <sup>st</sup> Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB SALVI VISHWAS JAYARAM	(JC-421941P)	07 <sup>th</sup> Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 <sup>st</sup> Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB BHUTA RAM	(JC-422188N)	02 <sup>nd</sup> Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 <sup>st</sup> Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB KARTAR SINGH	(JC-422211W)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
NB SUB RAMBIR SINGH	(JC-421831A)	01 <sup>st</sup> Oct 2014
NB SUB PURAN KUMAR SINGH	(JC-421832H)	01 <sup>st</sup> Oct 2014
NB SUB SREEKUMAR P	(JC-421838K)	01 <sup>st</sup> Oct 2014
NB SUB MOHAN DONGARE	(JC-421839M)	01 <sup>st</sup> Oct 2014
NB SUB KARUNANITHI A	(JC-421870Y)	01 <sup>st</sup> Oct 2014
NB SUB HARI KISHAN	(JC-421946N)	08 <sup>th</sup> Oct 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 <sup>st</sup> Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB RAKESH SINGH	(JC-421884Y)	01 <sup>st</sup> Oct 2014
NB SUB SUBHASH CHAND	(JC-422124H)	01 <sup>st</sup> Oct 2014
To be Naib Subedar		
HAV LAKHWINDER SINGH	(14917637M Now JC-422671X)	22 <sup>nd</sup> Aug 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 12 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV DINESH KUMAR SINGH	(14919989H Now JC-422672A)	11 <sup>th</sup> Aug 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 22 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV PARSARAM DHINWA	(14919194P Now JC-422673H)	01 <sup>st</sup> Aug 2014
HAV SHANKAR THAPA	(14917734K Now JC-422674L)	27 <sup>th</sup> Aug 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV RANKENDRA SINGH	(14920138H Now JC-422675N)	01 <sup>st</sup> Aug 2014
HAV SANJAY KUMAR	(14918506N Now JC-422676W)	01 <sup>st</sup> Aug 2014
HAV AMBERAKAR JAGADISH RAJARAM	(14918776H Now JC-422677Y)	23 <sup>rd</sup> Aug 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV RAJU NEWAR	(14918785K Now JC-422678F)	24 <sup>th</sup> Aug 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV SUDHIR MARWARI	(14921343W Now JC-422679K)	04 <sup>th</sup> Aug 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV SURJITH P	(14922591Y Now JC-422680Y)	01 <sup>st</sup> Aug 2014

HAV RAJ KUMAR	(14920815P Now JC-422681F)	02 <sup>nd</sup> Aug 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV RAJENDRA SINGH	(14921285X Now JC-422682K)	01 <sup>st</sup> Aug 2014
HAV BHARAT SINGH	(14921326W Now JC-422683M)	01 <sup>st</sup> Aug 2014
HAV NARAYAN SINGH CHOUHAN	(14921458K Now JC-422684P)	01 <sup>st</sup> Aug 2014
HAV DALWINDER SINGH	(14921401P Now JC-422685X)	01 <sup>st</sup> Aug 2014
HAV MEGHNATHI MAHESHGIRI MANSAGAR	(14920877P Now JC-422686A)	28 <sup>th</sup> Aug 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 09 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV MANOJ KUMAR	(14921015H Now JC-422687H)	11 <sup>th</sup> Sep 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 27 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV VINESH SINGH	(14920585M Now JC-422688L)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
HAV BINOD KUMAR RAY	(14920944P Now JC-422689N)	11 <sup>th</sup> Sep 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV ANIL KUMAR RAWAT	(14918417P Now JC-422690H)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
HAV RAJESH KUMAR SAKET	(14918455L Now JC-422691L)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
HAV HARI OM SINGH	(14919985M Now JC-422692N)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
HAV BAL BEER SINGH	(14919037H Now JC-422693W)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
HAV BHOMA RAM CHOUDHARY	(14919652A Now JC-422694Y)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
HAV SHAIK CHAND BASHA	(14920757W Now JC-422695F)	11 <sup>th</sup> Sep 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV JAI BHAGWAN	(14920156L Now JC-422696K)	09 <sup>th</sup> Sep 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV MAHINDER SINGH	(14920028N Now JC-422697M)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
HAV MITHILESH KUMAR	(14922664A Now JC-422698P)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
HAV DINA NATH	(14921131L Now JC-422699X)	01 <sup>st</sup> Sep 2014
HAV SURYABIR SINGH SHEKAHWAT	(14921352X Now JC-422700F)	01 <sup>st</sup> Sep 2014

## TO BE SUBEDAR (RELIGIOUS TEACHER PANDIT)

Shri Surya Prakash Tiwari (JC-419752M) 01 Aug 2014

## TO BE NAIB SUBEDAR (RELIGIOUS TEACHER PANDIT)

Akhila Nand Mishra (JC-422669A) 29 Mar 2014

Pushakar Mishra (JC-422554M) 28 Jun 2014

## TO BE NAIB SUBEDAR (CLERK (SD))

Rakesh Kumar Mishra (JC-422670P) 01 Aug 2014

## ARMD CORPS

## To be substantive RIS

1	NAIB RISALDAR RAMESH CHAND (JC244278L)	*02 Jun 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
2	NAIB RISALDAR VIVEKAN V (JC245033F)	01 Apr 2014
3	NAIB RISALDAR BHAGWAN SINGH (JC244064P)	*20 Jun 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 May 2014 without effect on pay and allowances)		
4	NAIB RISALDAR SHIV CHAND (JC244066A)	*21 Jun 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 May 2014 without effect on pay and allowances)		
5	NAIB RISALDAR DESH RAJ (JC244089F)	01 May 2014
6	NAIB RISALDAR SHAMBHU NATH SINGH (JC244871K)	*21 Jun 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 May 2014 without effect on pay and allowances)		

7	NAIB RISALDAR RAFEEK MOHAMMOD ( JC245150M)	* 26 May 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 May 2014 without effect on pay and allowances)	
8	NAIB RISALDAR KUMER SINGH RATHORE ( JC243985H)	*14 Jun 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	
9	NAIB RISALDAR BABU RAM BHADIYAR ( JC244245A)	01 Jun 2014
10	NAIB RISALDAR JAGVIR ( JC244353K)	11 Jun 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	
11	NAIB RISALDAR RAKESH KUMAR SHUKLA ( JC244658K)	*06 Jun 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	
12	NAIB RISALDAR RAJESH KUMAR ( JC244726M)	*03 Jun 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	
13	NAIB RISALDAR UMARDEEN ( JC244742K)	*19 Jul 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	
14	NAIB RISALDAR BALKAR SINGH ( JC244951F)	01 Jun 2014
15	NAIB RISALDAR TARA CHAND ( JC245079K)	01 Jun 2014
16	NAIB RISALDAR SUKHWANT SINGH ( JC245271N)	01 Jun 2014
17	NAIB RISALDAR JAGDISH SINGH ( JC245413A)	*05 Jun 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	
18	NAIB RISALDAR KUMBHAR DAYAMAND SHAN ( JC245605X)	*10 Jun 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	
19	NAIB RISALDAR VELMURUGAN K ( JC245606A)	01 Jun 2014
20	NAIB RISALDAR NAVEEN KUMAR ( JC245618P)	*02 Jun 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	
21	NAIB RISALDAR ANWAR HUSSAIN ( JC245626N)	*08 Jul 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	
22	NAIB RISALDAR SATISH KUMAR ( JC243941L)	01 Jul 2014
23	NAIB RISALDAR PRAMOD KUMAR SHARMA ( JC244053H)	01 Jul 2014
24	NAIB RISALDAR RAJ SINGH ( JC244121L)	*14 Jul 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)	
25	NAIB RISALDAR VIKARM SINGH ( JC244453P)	*10 Jul 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)	
26	NAIB RISALDAR GIREESH KUMAR S ( JC244494Y)	*10 Jul 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)	
27	NAIB RISALDAR KAILASH SINGH ( JC244707F)	* 24 Jul 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)	
28	NAIB RISALDAR NIMBALKAR ANANDARAO B ( JC244717L)	01 Jul 2014
29	NAIB RISALDAR SURENDER SINGH ( JC244751L)	01 Jul 2014
30	NAIB RISALDAR ARVIND KUMAR ( JC244770W)	01 Jul 2014
31	NAIB RISALDAR BALWANT KUMAR ( JC244809X)	*02 Jul 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)	
32	NAIB RISALDAR AMATE BIBHISHAN HARIBHA ( JC245255W)	*07 Jul 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)	

33	NAIB RISALDAR RAKESH B *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)	( JC245278X)	*09 Jul 2014
34	NAIB RISALDAR PRITHVI SINGH *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)	( JC245367W)	* 09 Jul 2014
35	NAIB RISALDAR NARPAT SINGH SHISHODIA	( JC245416N)	01 Jul 2014
36	NAIB RISALDAR DEV NARAYAN GUJAR	( JC245815X)	01 Jul 2014
37	NAIB RISALDAR RAKESH SINGH TOMAR *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)	( JC245887F)	* 05 Jul 2014
38	NAIB RISALDAR GURDEV SINGH	( JC244310P)	01 Aug 2014
39	NAIB RISALDAR MANOHAR LAL	( JC244505A)	01 Aug 2014
40	NAIB RISALDAR UNNIKRISHANAN P.V	( JC244506H)	01 Aug 2014
41	NAIB RISALDAR PRAKASH GIR ATRI	( JC244644K)	01 Aug 2014
42	NAIB RISALDAR BHATT KAUSHIK KUMAR KA *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)	( JC244771Y)	*14 Aug 2014
43	NAIB RISALDAR GUDDU LAL	( JC244773K)	01 Aug 2014
44	NAIB RISALDAR KAMAL DEO KUMAR SINGH	( JC244774M)	01 Aug 2014
45	NAIB RISALDAR GAJENDRA SINGH TEATIO	( JC245164M)	01 Aug 2014
46	NAIB RISALDAR VIJAY KUMAR	( JC245216X)	01 Aug 2014
47	NAIB RISALDAR A P MADHUSOODANAN	( JC245250X)	01 Aug 2014
48	NAIB RISALDAR SURESH KANT MISHRA	( JC245368Y)	01 Aug 2014
49	NAIB RISALDAR UTTAM KUMAR MAITI	( JC245369F)	01 Aug 2014
50	NAIB RISALDAR SURESH KUMAR	( JC245445H)	01 Aug 2014
51	NAIB RISALDAR LUTHFUR RAHMAN LASKAR	( JC244745X)	01 Sep 2014
52	NAIB RISALDAR RAVINDER SINGH	( JC244775P)	01 Sep 2014

RAJIV JAUHARI  
Under Secy.

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION**

No. 296, dated 5<sup>th</sup> December 2014—The President is pleased to promote the following officers from existing grade wef the date (F/N) as mentioned against each:-

Name Shri/Smt/Miss	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
RITU GOPAL	DEAL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
ISHAK LAL JAWALIA (SC)	DEAL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
GS CHAUHAN	DEAL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011

RAJENDAR KUMAR (SC)	DEAL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
MOHAN CHANDER JOSHI	DEAL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
KISHORI LAL	DEAL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
YOGESH KUMAR	DEAL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SANTRAM SINGH (SC)	DEAL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
BHUPENDER SINGH (SC)	DEAL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
MAHIPAL PALIWAL (SC)	DEAL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
TAPAN KUMAR BHATTACHARYA	DEAL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
OM PRAKASH	DEAL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
CH NAGARAJU	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
P SWARNA LATHA	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
BB SIVAKOTI	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
B LAKPATHI (ST)	DMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
K SATYANARAYANA	DMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
KS YADAI AH	DMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
TV RAMESH BABU	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
K JAGAN MOHAN	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
MRK MOHANLAL	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
JANGAM PETHURU (SC)	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SK MOHAN RAO	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
K PRABHAKAR RAO	DMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
B POTHA RAJU	DMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012



K RAMAPRASAD	DMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
B JOHN (ST)	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
G BALAJI (ST)	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
GB VIKRAM	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
M SURESH	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
R SUNIL KUMAR	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
P RAJA RAO (SC)	DMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
HV SUBRAMANYAM	DMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
L RATNA KUMARI	DMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
SYED ABDUL QUAYUM	DMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
D VENUGOPAL	RCI	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
K VIJAYASRI	RCI	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
CVS PRASANNA KUMARI	RCI	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
NARESH KUMAR	RCI	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
B PRABHAKAR	RCI	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
B BALUDU	RCI	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
KM USHA	RCI	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
V MURALI KRISHNA	RCI	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SARITHA FULMAMDIKAR	RCI	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
S MUDHUSUDHAN	RCI	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
MUTHU AZHAGAN (SC)	RCI	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
P UMAMAHESWAR REDDY	RCI	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

PREMNATH KIRAD	RCI	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
Y BALAJI	RCMA (Materials) Hyderabad	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
K MALLESWARA RAO	RCMA (Missiles) Hyderabad	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
PRATIBHA DUBEY	RCMA Kanpur	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
RN PRASAD (SC)	RCMA Lucknow	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
PERMESHWARI DIN PAL	RCMA (AIR ARMTS) PUNE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
DHRUVKANT SINGH (SC)	SAG	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
GS ADHIKARI	SAG	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
JAI SINGH (SC)	SAG	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
JAGDISH PRASAD (ST)	SASE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
DEVI CHAND	SASE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
BALDEV SURYA (SC)	SASE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
RAJEEV KUMAR	SASE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
HERPAL SINGH	SASE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
MANOJ KUMAR	SASE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
VIKRAM SINGH	SASE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
JAGMOHAN BHARDWAJ	SASE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
PRATAP SINGH (ST)	SSPL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
ANAND KUMAR	SSPL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
BHARAT VEER SINGH	SSPL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
SUMEDHA SOOD	TBRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
SHEO PARSAN BHAGAT	TBRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011

SHARDA DEVI	TBRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
BHAJAN SINGH	TBRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SUNITA KALRA	TBRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
VINOD KUMAR CHAUDHARY	TBRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
DEEPAK CHHABRA	TBRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
SURESH MADAN	TBRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
GURDEEP SINGH	TBRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
ROHIT VIVEK SAHNI	TBRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
SK KULANGE	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
NB PATIL	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
AB THOMBARE	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
MD JADHAV	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
RR BHALSING	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
NM JAGTAP (ST)	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
EF NASIR	VRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
RG BHANDARE	VRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
TR ASHOK KUMAR	VRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
NOZAR HI	VRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
KG BERAD	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
VP SOLE	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
AY GAIKWAD (SC)	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
NB RAMDIN	VRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
KASHMIR SINGH	VRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
AK JAWALE (SC)	VRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012

AB SHARMA	VRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
B SATHI BABU	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
RN YADAV	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
DE GIRME	VRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
SU KANADE	VRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
PC ARORA	VRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
SS YADAV (SC)	DRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
PAWAN KOLHE (ST)	DRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
CK WAGHMARE (SC)	DRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
AMRIK SINGH	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
ASHWANI KUMAR	IRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
GOVIND SINGH (SC)	IRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
RAJENDRA SINGH NEGI (ST)	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
YASH KASHYAP	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
RC NAUTIYAL	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
BD JOSHI (ST)	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
RAJESH KUMAR	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
RAGHUBIR SINGH	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
GULAB SINGH NEGI	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
ANIL BASNET	IRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
SUSHIL KUMAR ISSAR	LASTEC	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
VINOD CHANDRA SHARMA	LASTEC	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
B VIJAYA KUMAR	MTRDC	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
SS PAWAR	NMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011

VIVEK ANANT SAVANT	NMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
SD KEER	NMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
PV SATVILKAR	NMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
ANIL SUDHAKAR PATANKAR (ST)	NMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
LALY JOSEPH (ST)	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
P SURESH KUMAR	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
AP SHANDI	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
VP GOPALAKRISHNAN NAIR	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
T HEMALATHA	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
MP ALEYAMMA	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
P JAGADISH CHANDRA MENON	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
PL ROSILY	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
KP KRISHNAVENI (SC)	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
AC SIVASANKARA MARAR	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	04.09.2012
KV SURENDRAN	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
VR SURESH BABU	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
R KRISHNAN (SC)	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
S MADHUSUDHANAN	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
KL THOMAS	NPOL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
MK SATHEESH KUMAR (SC)	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
VG RADHAKRISHNAN	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
PA SUKUMARAN NAIR	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
AO JESSY	NPOL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013

PK SIVADASAN (SC)	NPOL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
K NAGESWARA RAO (ST)	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
KSK MOHAN	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
MV RAMANA RAO	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
DS RAMARAJU	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
PV RATNACHARYULU	NSTL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
ES RAJU	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
CHKV SITARAM	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
EB APPARAO (SC)	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
T UMA RANI	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
D BHASKARARAO	NSTL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
KB VIJAYA (SC)	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
K UMA MAHESWARA RAO (SC)	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
CH JAYA RAO (ST)	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
DV RAMAN	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
T CHANDRASEKHARA RAO (SC)	NSTL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
K SAMUEL (SC)	NSTL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
PC SAHU	O&M (AD RADARS) UNIT	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
CHITTARANJAN DAS	PXE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
LAXMIDHAR SAHOO	PXE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
RN DAS (SC)	PXE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
SN PAUL	PXE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012

S PANIGRAHI	PXE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
FAGU HEMBRAM (ST)	PXE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
LK CHAND	PXE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
BN DUTTA	PXE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

NARESH VIRDI  
Jt. Director (Pers-TC)

CORRIGENDUM

No. 297, dated 8<sup>th</sup> December 2014—Reference is made to Ministry of Defence Notification published in the Gazette Sl. No. 31 Entry No. 298 Aug 03-09 2013 (Sravana 12, 1935) (31/298/13) under Part I – Section 4, Air Force. The entry in respect of the under mentioned officer is amended:-

INDIAN AIR FORCE

WG CDR TO BE SUBSTANTIVE GP CAPT (TS)

AS

EDUCATION BRANCH

VS INGLE (18341),

w.e.f 07 June 2012

FOR

ADM BRANCH

VS INGLE (18341),

w.e.f 07 June 2012

Tarun Khare  
Wing Commander  
Joint Director  
Personnel Offrs – 3(D)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014  
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,  
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014  
www.dop.nic.in